



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2518]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 28, 2012/पौष 7, 1934

No. 2518]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 28, 2012/PAUSA 7, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2012

**का.आ. 3035(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 133(अ), तारीख 20 जनवरी, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के झालावाड़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के 346.000 कि.मी. से 365.000 कि.मी. (झालावाड़-ब्यावरा सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 29 फरवरी, 2012 को "राजस्थान पत्रिका" और "दैनिक भास्कर" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

## अनुसूची

राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के 346.000 कि.मी. से 365.000 कि.मी. तक (झालावाड़-ब्यावरा सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	(1)झालावाड़	(1) झालरापाटन	(1) आकोदिया	52	निजी	बीड़	0.0296	कल्लू, रामनारायण, दुलीचन्द, रामनाथ, तुलसीराम पिता अमरा हि. 5/6 हि.ब. केलाशचन्द बा. अर्जुनसिंह ना.बा. दुर्गाशंकर नाबा. पि. दोलतराम, दुर्गाबाई, सीमाबाई, कलावती बाई, नाबा. संगीता ना.बा. राजकुमारी नाबा. पि. दोलतराम, जतनबाई बेवा दोलतराम हि. 1/6 हि.ब. जाति भील ठाकुर सा. देह नाबा. की वली माता जतनबाई खातेदार।
				266	निजी	बीड़	0.0500	काशीराम पिता किशना जाति भील ठाकुर सा. देह खातेदार।
				362	निजी	चाही प्रथम	0.0162	कालू, बजरंगा, मनोहर, छगन पिता किशन, नंदूबाई पुत्री किशन व रामलाल पुत्र फूलचन्द व बालाराम पिता बरदा हि. 5/8 रत्तीराम, अतुल पिता प्रभू, नाराणी बाई बेवा प्रभू हि. 1/6 केलाशबाई पत्नी इन्द्रसिंह हि. 5/24 जाति भील सा. देह खातेदार।
				63	निजी	बीड़	0.0282	दुर्गालाल, अमरलाल पिता देवीलाल, सीताबाई शेतानबाई, बदाम बाई, सज्जनबाई पुत्रियाँ देवीलाल, कानीबाई बेवा देवीलाल हि. 1/3, कालू, तेजपाल नाबा. पि. सीताराम, पार्वती नाबा. पुत्री सीताराम पानाबाई बेवा सीताराम हि. 1/3 हि.ब. नाबा. की वली माता पानाबाई, नंदा, पप्पू पिता रामसिंह, धीसीबाई, पुत्री रामसिंह कमलाबाई बेवा रामसिंह हि. 1/3 हि.ब. जाति भील सा. देह खातेदार।
				48	निजी	बीड़	0.0179	दुर्गालाल पिता पन्ना हि. 1/2 भैरू पिता नन्दा हि. 1/12 रामरतन पि. नन्दा हि. 1/4, रामरतन, नानूराम, कालू पिता बिरधा भेरीबाई, धापूबाई पुत्रीया बिरधा हि. 1/5 हि.ब. जाति भील सा. देह खातेदार।
				261	निजी	बारानी दोयम	0.0500	दुलीचंद पिता अमरलाल हि. 1/2 देवीशंकर पिता जयलाल, धापूबाई बेवा जयलाल हि. 1/2 हि.ब. जाति भील सा. इकतासा खातेदार।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				53	निजी	बीड़	0.0193	देवलाल पिता नारायण हि. 1/3 पुरीलाल, जानकीलाल पिता मन्ना हि. 1/3 शोभाराम नाबा. पि. पुरीलाल, पिकीबाई, नाबा. खानीबाई नाबा. पुत्रियां पुरीलाल हि. 1/36 हि.ब. भवानीशंकर, बालचन्द पिता रुग्नाथ, जानीबाई पुत्री रुग्नाथ केसरबाई बेवा रुग्नाथ हि. 5/36 हि.ब. हरचंद, देवीचन्द पुत्र बापूलाल कान्ती बाई पुत्री बापू लाल कंचन बाई बेवा बापू लाल हि. 5/36, हि.ब. भगवन्ती बाई पुत्रियां जोधा हि. 1/36 अकवाम भील सा. देह राधाबाई पत्नी देवलाल जाति मीणा सा. देह हि. 1/36 खातेदार।
				265	निजी	बीड़	0.0223	देवीलाल, रामकिशन, दुर्गालाल पि. पूरा बदनबाई बेवा पूरा हि. 1/4, रामसिंह, करणसिंह, फूलसिंह, गजेंसिंह पि. हीरा हि. 3/16 कमलाबाई पत्नि रामसिंह हि. 1/16 राधेश्याम पि. रामचन्द्र हि. 1/3 मांगीबाई, पुष्पाबाई पुत्रियां रामचन्द्र हि. 1/6 जाति भील ठाकुर सा. देह खातेदार।
				357	निजी	चाही प्रथम	0.0068	देवीलाल, रामकिशन, दुर्गालाल पि. पूरा बदनबाई बेवा पूरा हि. 1/4, रामसिंह, करणसिंह, फूलसिंह, गजेंसिंह पि. हीरा हि. 3/16 कमलाबाई पत्नि रामसिंह हि. 1/16 राधेश्याम पि. रामचन्द्र हि. 1/3 मांगीबाई, पुष्पाबाई पुत्रियां रामचन्द्र हि. 1/6 जाति भील ठाकुर सा. देह खातेदार।
				358	निजी	जाव प्रथम/चाही प्रथम	0.0191	देवीलाल, रामकिशन, दुर्गालाल पि. पूरा बदनबाई बेवा पूरा हि. 1/4, रामसिंह, करणसिंह, फूलसिंह, गजेंसिंह पि. हीरा हि. 3/16 कमलाबाई पत्नि रामसिंह हि. 1/16 राधेश्याम पि. रामचन्द्र हि. 1/3 मांगीबाई, पुष्पाबाई पुत्रियां रामचन्द्र हि. 1/6 जाति भील ठाकुर सा. देह खातेदार।
				359	निजी	चाही प्रथम/जाव प्रथम	0.0339	देवीलाल, रामकिशन, दुर्गालाल पि. पूरा बदनबाई बेवा पूरा हि. 1/4, रामसिंह, करणसिंह, फूलसिंह, गजेंसिंह पि. हीरा हि. 3/16 कमलाबाई पत्नि रामसिंह हि. 1/16 राधेश्याम पि. रामचन्द्र हि. 1/3 मांगीबाई, पुष्पाबाई पुत्रियां रामचन्द्र हि. 1/6 जाति भील ठाकुर सा. देह खातेदार।
				260/461	निजी	बारानी दोयम	0.0020	देवीशंकर पिता भैरु जाति मीणा सा. इकतासा खातेदार।
				255	निजी	बारानी दोयम	0.0160	नन्द किशोर पिता रामचन्द्र जाति भील नि. झालरापाटन हि. 1/4 रमकुबाई बेवा भंवरलाल हि. 1/4 बसंतीबाई पत्नि बीजेलाल हि. 1/4 बिजेलाल पि. भंवरलाल हि. 1/4 जाति मीणा सा. इकतासा खातेदार।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				262	निजी	बीड़	0.0550	नन्द किशोर पिता रामचन्द जाति भील नि. झालरापाटन हि. 1/4 रमकूबाई बेवा भंवरलाल हि. 1/4 बसंतीबाई पत्नि बीजेलाल हि. 1/4 बिजेलाल पि. भंवरलाल हि. 1/4 जाति मीणा सा. इकतासा खातेदार।
				366	निजी	चाही प्रथम/जाव प्रथम	0.0253	भेरूलाल, मांगीलाल, रामसिंह पुत्र रामकरण भेरीबाई पुत्री रामकरण जाति भील ठाकुर हि.ब. सा. देह खातेदार।
				363	निजी	चाही प्रथम/जाव प्रथम	0.0139	भेरू पिता घीसा हि. 1/2 रतन, कालू, गोपाल, भवानीसिंह पिता नन्दा व नाराणी बाई बेवा नन्दा हि. 1/2 हि.ब. जाति भील ठाकुर सा. देह खातेदार।
				364	निजी	गे.मु. रास्ता	0.0025	भेरू पिता घीसा हि. 1/2 रतन, कालू, गोपाल, भवानीसिंह पिता नन्दा व नाराणी बाई बेवा नन्दा हि. 1/2 हि.ब. जाति भील ठाकुर सा. देह खातेदार।
				499/368	निजी	चाही प्रथम/जाव प्रथम	0.0124	मदनलाल पुत्र चम्पालाल जाति भील सा. देह खातेदार।
				253	निजी	बारानी प्रथम	0.0330	रामकिशन, लक्ष्मीनारायण, श्रीराम, बजरंग पिता नाथूलाल, प्रेमबाई पत्नी नाथूलाल जाति मीणा सा. इकतासा हि.ब. खातेदार।
				254	निजी	बीड़	0.0064	रामकिशन, लक्ष्मीनारायण, श्रीराम, बजरंग पिता नाथूलाल, प्रेमबाई पत्नी नाथूलाल जाति मीणा सा. इकतासा हि.ब. खातेदार।
				67	निजी	बीड़	0.0126	रामकिशन, रामदयाल, प्रेमचन्द पुत्र रामप्रताप, गुडीबाई मोहरबाई, भूलीबाई, धनकंवरबाई पुत्रीया रामप्रताप, गुलाबबाई बेवा रामप्रताप हि. 1/6 व दुर्गाबाई, गीताबाई पुत्रीयां उदा हि. 1/6 सीताराम पिता नानूराम हि. 1/3 हरिराम पिता नानूराम हि. 1/3 जाति भील ठाकुर सा. देह खातेदार।
				69	निजी	बीड़	0.0010	रामकिशन, रामदयाल, प्रेमचन्द पुत्र रामप्रताप, गुडीबाई मोहरबाई, भूलीबाई, धनकंवरबाई पुत्रीया रामप्रताप, गुलाबबाई बेवा रामप्रताप हि. 1/6 व दुर्गाबाई, गीताबाई पुत्रीयां उदा हि. 1/6 सीताराम पिता नानूराम हि. 1/3 हरिराम पिता नानूराम हि. 1/3 जाति भील ठाकुर सा. देह खातेदार।
				258	निजी	बारानी दोयम	0.0520	रामलाल पि. फूलजी जाति भील ठाकुर सा. देह खातेदार।
				62	निजी	बीड़	0.0126	सुगनाबाई पत्नि प्रेमचन्द भील सा. कलमंडी खुर्द हि. 5/16 बदीलाल पिता गंगाराम हि. 5/16 जमनाबाई पुत्री गंगाराम हि. 1/16 हेमराज पिता दयाराम, कालीबाई, बसंतीबाई नाबा. पुत्रियां दयाराम नाबा. की वली माता भंवरीबाई खुद एवं भंवरीबाई बेवा दयाराम हि. 5/16 जाति भील सा. देह खातेदार।
				175	सरकारी	चारागाह	0.0250	चारागाह

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				68	सरकारी	गे.मु. चाह	0.0126	राजस्थान सरकार (सिवायक)
				81	सरकारी	गे.मु. आबादी	0.0252	राजस्थान सरकार (सिवायक)
				307	सरकारी	गे.मु. आबादी	0.0244	राजस्थान सरकार (सिवायक)
				251	सरकारी	गे.मु. रास्ता	0.0060	राजस्थान सरकार (सिवायक)
				321	सरकारी	गे.मु. रास्ता	0.0102	राजस्थान सरकार (सिवायक)
				260 / 480	सरकारी	बारानी दोयम	0.0008	राजस्थान सरकार (सिवायक)
				508 / 257	सरकारी	औद्योगिक प्रयोजन	0.0200	राजस्थान सरकार (सिवायक)
			(2) कल्याणपुरा	5	निजी	माल सोयम	0.0615	देवीलाल, बाबूलाल पुत्र चम्पासम हि. 1/2 हि.ब. मोहनलाल पुत्र चम्पालाल हि. 1/6 राजू पुत्र बालचन्द प्रेमबाई, रुकमणी बाई, पुत्री कालचन्द कमला बाई पत्नी स्व. बालचन्द हि. 1/4 सम्भाग जाति माली निवासी इकतासा व रंगलाल पुत्र मैरुलाल जाति मीणा सा. देह हि. 1/12 खातेदार।
				278 / 13	निजी	बीड़	0.0379	देवीशंकर पुत्र मेरु जाति मीणा निवासी इकतासा खातेदार।
				282 / 6	निजी	माल सोयम	0.0250	देवीशंकर पुत्र मांगीलाल जाति खाती निवासी इकतासा खातेदार।
				8	निजी	बीड़	0.0051	बजरंग लाल पुत्र बापू कंचनबाई पुत्री बापू हि. 2/45 हि.ब. व पीयूष कुमार पि. ओम प्रकाश जाति खाती निवासी झालावाड़ हि. 3/45 नीमराज, हेमराज पुत्र हीरा, संतोष बाई पुत्री हीरा हि. 1/9 दुर्गा शंकर, मोहनलाल, भगवान पि. बदीलाल हि. 1/3 जाति ब्राह्मण सा. इकतासा पीयूष पुत्र ओम प्रकाश, कृष्णा पत्नी ओम प्रकाश हि. 5/18 जाति खाती नि. झालावाड़ गोपाल, श्यामलाल पि. भुवाना हि. 1/9 मैरुलाल, कन्हैयालाल नाबा. पि. चम्पानन्द संखक काका श्याम लाल, कमलेश बाई अनोख बाई पुत्रीया रामचन्द्र हि. 1/18 जाति माली सा. पनवासा खातेदार।
				9	निजी	माल सोयम	0.0500	बजरंग लाल पुत्र बापू कंचनबाई पुत्री बापू हि. 2/45 हि.ब. व पीयूष कुमार पि. ओम प्रकाश जाति खाती निवासी झालावाड़ हि. 3/45 नीमराज, हेमराज पुत्र हीरा, संतोष बाई पुत्री हीरा हि. 1/9 दुर्गा शंकर, मोहनलाल, भगवान पि. बदीलाल हि. 1/3 जाति ब्राह्मण सा. इकतासा पीयूष पुत्र ओम प्रकाश, कृष्णा पत्नी ओम प्रकाश हि. 5/18 जाति खाती नि. झालावाड़ गोपाल, श्यामलाल पि. भुवाना हि. 1/9 मैरुलाल, कन्हैयालाल नाबा. पि. रामचन्द्र संखक काका श्याम लाल, कमलेश बाई अनोख बाई पुत्रीया रामचन्द्र हि. 1/18 जाति माली सा. पनवासा खातेदार।
				1	निजी	माल सोयम	0.0684	बालराम पुत्र दुलीचन्द, केशवबाई पुत्री दुलीचन्द हि. 1/2 देवीलाल पुत्र मेरु हि. 1/2 जाति मीणा नि. इकतासा खातेदार।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				10	निजी	माल सोयम	0.0690	मबरलाल, कल्याण, मोहनलाल पुत्र हीरालाल हि.ब. हि. 1/2 राकेश कुमार पुत्र मांगीलाल पूनमबाई पत्नि मांगीलाल हि.ब. हि. 1/2 जाति मीणा निवासी गांव खातेदार।
				2	निजी	माल सोयम	0.0305	राजाराम, लालचन्द, रामनिवास पुत्र बालचन्द, कमलाबाई पत्नि स्व. बालचन्द हि. 1/2 हि.ब. कालूलाल पुत्र पन्नालाल हि. 1/2 जाति मीणा निवासी इकतासा खातेदार।
				3	निजी	माल सोयम	0.0321	राजाराम, लालचन्द, रामनिवास पुत्र बालचन्द, कमलाबाई पत्नि स्व. बालचन्द हि. 1/2 हि.ब. कालूलाल पुत्र पन्नालाल हि. 1/2 जाति मीणा निवासी इकतासा खातेदार।
				11	निजी	बीड़	0.0271	राजेश कुमार पुत्र मांगीलाल पूनमबाई पत्नि स्व. मांगीलाल जाति मीणा निवासी गांव खातेदार हि.ब.।
				18	निजी	माल दोयम	0.0160	राजेश कुमार पुत्र मांगीलाल पूनमबाई पत्नि स्व. मांगीलाल जाति मीणा निवासी गांव खातेदार हि.ब.।
				283/6	निजी	माल सोयम	0.0042	रामप्रसाद पुत्र मांगीलाल जाति खाती निवासी इकतासा खातेदार।
				281/6	निजी	माल सोयम	0.0214	रामनारायण पुत्र मांगीलाल जाति खाती निवासी इकतासा खातेदार।
			(3) इकतासा	1444/1005	निजी	बीड़	0.0130	कवरीबाई पुत्री नानूराम हि. 2/3 लालीबाई पुत्री नानूराम हि. 1/3 जाति भील सा. देह खातेदार।
				606	निजी	चाही दोयम	0.0060	कान्हा, देवीलाल, रामप्रसाद पुत्र चन्दनिया जानीबाई, कंचन रुकमण राधी जड़ाव पुत्रियां चन्दनिया, गजरी बेवा चन्दनिया हि. 1/2 हि.ब. लक्ष्मीनारायण पुत्र पूरिया हि. 1/4 रविन्द्र, विनोद, बनवारी पि. बीरम, अरुणा पुत्री बीरम, सोहनबाई पत्नी बीरम हि. 1/4 जाति मेघवाल हि. 1/2 निवासी गांव खातेदार।
				605	निजी	गे.मु. चाह	0.0036	कान्हा, देवीलाल, रामप्रसाद पुत्र चन्दनिया जानीबाई, कंचन रुकमण राधी जड़ाव पुत्रियां चन्दनिया, गजरी बेवा चन्दनिया हि. 1/2 हि.ब. लक्ष्मीनारायण पुत्र पूरिया हि. 1/4 रविन्द्र, विनोद, बनवारी पि. बीरम, अरुणा पुत्री बीरम, सोहनबाई पत्नी बीरम हि. 1/4 जाति मेघवाल हि. 1/2 निवासी गांव खातेदार।
				586/1318	निजी	माल प्रथम/बीड़	0.0139	केलाश, भवाना, गोपाल पुत्र कन्हैयालाल रुकमणी पुत्री कन्हैयालाल सुन्दरबाई बेवा कन्हैयालाल हि. 5/6 हि.ब. कल्पना नाबा. पुत्री श्याम सुनिता देवी बेवा श्याम हि. 1/6 जाति बैरागी नि. गांव खातेदारा कल्पना नाबा. की वली माता खुद सुनिता देवी।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1253	निजी	चाही प्रथम/बीड़ प्रथम	0.0176	केलारा, भवाना, गोपाल पुत्र कन्हैयालाल सुन्दरबाई बेवा कन्हैयालाल हि. 5/6 हि.ब. कल्पना नाबा. पुत्री श्याम सुनिता देवी बेवा श्याम हि. 1/6 जाति बैरागी नि. गांव खातेदार कल्पना नाबा. की वली माता खुद सुनिता देवी।
				1259/1413	निजी	माल सोयम	0.0075	गुलाबबाई जोजे घीसा जाति माली निवासी गांव खातेदार
				1262	निजी	बारानी दोयम	0.0016	गुलाबबाई जोजे घीसा जाति माली निवासी गांव खातेदार
				1258	निजी	बारानी दोयम	0.0350	गुलाबबाई जोजे घीसा जाति माली सा. देह खातेदार
				1127	निजी	बीड़	0.0067	ग्राम पंचायत अकतासा खातेदार
				657	निजी	बीड़	0.0650	घीसा पुत्र लछमन जाति माली निवासी गांव खातेदार।
				1247	निजी	बीड़	0.0249	घीसा पुत्र लछमन जाति माली निवासी गांव खातेदार।
				586	निजी	बीड़/माल प्रथम	0.0149	चन्द्रप्रकाश, मधुसूदन, राधेश्याम पुत्र बालचन्द, ललता बाई पुत्री बालचन्द, रामकन्या बेवा बालचन्द हि.ब. जाति बैरागी निवासी गांव खातेदार।
				1256/1319	निजी	माल प्रथम/बीड़	0.0245	चन्द्रप्रकाश, मधुसूदन, राधेश्याम पुत्र बालचन्द, ललता बाई पुत्री बालचन्द, रामकन्या बेवा बालचन्द हि.ब. जाति बैरागी निवासी गांव खातेदार।
				1499/931	निजी	माल सोयम	0.0167	जगदीशचन्द पि. देवलाल जाति मीणा सा. बड़बेला खातेदार।
				1037	निजी	गे.मु. आबादी	0.0140	जगदीशचन्द, रामप्रसाद रामेश्वर पिता मांगीलाल कोम माली सा. गांव खातेदार।
				1039	निजी	चाही प्रथम	0.0157	जगदीशचन्द, रामप्रसाद रामेश्वर पिता मांगीलाल कोम माली सा. गांव खातेदार।
				1040	निजी	माल प्रथम	0.0219	जगदीशचन्द, रामप्रसाद रामेश्वर पिता मांगीलाल कोम माली सा. गांव खातेदार।
				1041	निजी	बीड़	0.0183	जगदीशचन्द, रामप्रसाद रामेश्वर पिता मांगीलाल कोम माली सा. गांव खातेदार।
				701	निजी	बीड़	0.0124	जयलाल पुत्र दूधा जाति माली निवासी गांव खातेदार।
				918	निजी	बीड़	0.0115	जयलाल पुत्र दूधा जाति माली निवासी गांव खातेदार।
				929	निजी	गे.मु. चाह	0.0056	जयलाल, रतनलाल, मोहनलाल पुत्र भंवरलाल कमला, शान्ति पुत्रियां भंवरलाल हि. 1/5 राजू पुत्र कंवरलाल कन्याबाई पुत्री कंवरलाल हि. 2/25 जाति तेली श्रीमती पुष्पाबाई पत्नी बद्रीलाल ब्रा. हि. 18/25 सा. देह खातेदार।
				1443/1005	निजी	बीड़	0.0054	जवाहर, धन्ना पुत्र देवीलाल भंवरी पत्नी स्व. देवीलाल जाति भील सा. देह खातेदार।
				1460/1030	निजी	बीड़	0.0020	जवाहर, धन्ना पुत्र देवीलाल भंवरी पत्नी स्व. देवीलाल जाति भील सा. देह खातेदार।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				587	निजी	बीड़	0.0550	ज्ञानप्रकाश पुत्र प्रमूलाल बा. सा. देह खातेदार।
				588	निजी	माल प्रथम	0.0037	ज्ञानप्रकाश पुत्र प्रमूलाल बा. सा. देह खातेदार।
				603	निजी	बीड़	0.0020	ज्ञानप्रकाश पुत्र प्रमूलाल बा. सा. देह खातेदार।
				932	निजी	बीड़	0.0044	दुर्गालाल, सत्यनारायण पि. रामचन्द्र जाति मीणा हि.ब. खातेदार।
				1501/931	निजी	माल सोयम	0.0805	दुर्गालाल, सत्यनारायण पि. रामचन्द्र जाति मीणा हि.ब. खातेदार।
				899	निजी	माल दोयम	0.0416	दुलीचन्द पुत्र अमरलाल हि. 1/2 देवीशंकर पुत्र जयलाल धापूबाई बेवा जयलाल हि. 1/2 जाति मीणा नि. गांव खातेदार।
				900	निजी	माल दोयम	0.0435	दुलीचन्द पुत्र अमरलाल हि. 1/2 देवीशंकर पुत्र जयलाल धापूबाई बेवा जयलाल हि. 1/2 जाति मीणा नि. गांव खातेदार।
				895	निजी	माल दोयम	0.0700	देवलाल पुत्र मोतीलाल जाति मीणा नि. गांव खातेदार।
				941	निजी	जाव दोयम/चाही दोयम	0.0296	देवीशंकर पुत्र मेरु जाति मीणा सा. देह खातेदार।
				580	निजी	बीड़	0.0424	पुष्पाबाई जोजे प्रेमबिहारी जाति माली नि. गांव खातेदार।
				928	निजी	माल सोयम	0.1051	पूनमचन्द पि. देराम गायत्री, कमोदबाई, मंजुबाई पुत्रियां देराम राधाबाई बेवा देराम जाति मीणा सा. देह खातेदार।
				573	निजी	बारानी दोयम	0.0100	प्रमूलाल पुत्र रामचन्द्र माली. सा. देह खातेदार।
				1442/1005	निजी	बीड़	0.0129	प्रमूलाल पुत्र गोपीलाल जाति मील सा. देह खातेदार।
				1459/1030	निजी	बीड़	0.0020	प्रमूलाल पुत्र गोपीलाल जाति मील सा. देह खातेदार।
				1257/1412	निजी	बीड़	0.0059	प्रमूलाल पुत्र दयाराम (बलाई) नि. गांव खातेदार।
				685	निजी	चाही उत्तम	0.0319	प्रमूलाल, श्यामलाल पुत्र देवीलाल घोंसी, कानी पुत्री देवीलाल बालचन्द पुत्र गोपी, कंचन, अयोध्या पुत्रिया गोपी, मोहन, हेमराज पुत्र बापूलाल, भूलीबाई पुत्री बापूलाल महताब बाई बेवा बापूलाल हीराबाई पत्नी रामचन्द्र, भूलीबाई पत्नी मनोहरलाल संतोषबाई पत्नी मोहनलाल हि.ब. जाति मील ठाकर नि. गांव खातेदार।
				695	निजी	बीड़	0.0246	प्रमूलाल, श्यामलाल पुत्र देवीलाल घोंसी, कानी पुत्री देवीलाल बालचन्द पुत्र गोपी, कंचन, अयोध्या पुत्रिया गोपी, मोहन, हेमराज पुत्र बापूलाल, भूलीबाई पुत्री बापूलाल महताब बाई बेवा बापूलाल हीराबाई पत्नी रामचन्द्र, भूलीबाई पत्नी मनोहरलाल संतोषबाई पत्नी मोहनलाल हि.ब. जाति मील ठाकर नि. गांव खातेदार।



1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1001	निजी	चाही प्रथम	0.0048	बजरंगलाल पुत्र कंवरलाल, धापूबाई मांगीबाई काली बाई शांतिबाई पुत्रीयां कंवरलाल, केसर बाई बेवा कंवरलाल हि. 6/14 समभाग, घनश्याम, राधेश्याम गुड्डा पुत्र घीसीबाई, लक्ष्मीनारायण पति घीसीबाई हि. 1/14 बृजमोहन, राधेश्याम पुत्र हरलाल, संतोष बाई पुत्री हरलाल धापूबाई बेवा हरलाल हि. 1/8 प्रेमचन्द पुत्र रणकलाल, धन्नीबाई बेवा रणकलाल हि. 1/4 हि.ब. बबलू पुत्र रामनाथ, कान्तीबाई, बसन्ती बाई, शारदाबाई, सुनिताबाई पुत्रीया रामनाथ हि. 1/8 जाति माली नि. गांव खातेदार।
				1002	निजी	गे.मु. चाह	0.0061	बजरंगलाल पुत्र कंवरलाल, धापूबाई मांगीबाई काली बाई शांतिबाई पुत्रीयां कंवरलाल, केसर बाई बेवा कंवरलाल हि. 6/14 समभाग, घनश्याम, राधेश्याम गुड्डा पुत्र घीसीबाई, लक्ष्मीनारायण पति घीसीबाई हि. 1/14 बृजमोहन, राधेश्याम पुत्र हरलाल, संतोष बाई पुत्री हरलाल धापूबाई बेवा हरलाल हि. 1/8 प्रेमचन्द पुत्र रणकलाल, धन्नीबाई बेवा रणकलाल हि. 1/4 हि.ब. बबलू पुत्र रामनाथ, कान्तीबाई, बसन्ती बाई, शारदाबाई, सुनिताबाई पुत्रीया रामनाथ हि. 1/8 जाति माली नि. गांव खातेदार।
				1004	निजी	चाही प्रथम	0.0334	बजरंगलाल पुत्र कंवरलाल, धापूबाई मांगीबाई काली बाई शांतिबाई पुत्रीयां कंवरलाल, केसर बाई बेवा कंवरलाल हि. 6/14 समभाग, घनश्याम, राधेश्याम गुड्डा पुत्र घीसीबाई, लक्ष्मीनारायण पति घीसीबाई हि. 1/14 बृजमोहन, राधेश्याम पुत्र हरलाल, संतोष बाई पुत्री हरलाल धापूबाई बेवा हरलाल हि. 1/8 प्रेमचन्द पुत्र रणकलाल, धन्नीबाई बेवा रणकलाल हि. 1/4 हि.ब. बबलू पुत्र रामनाथ, कान्तीबाई, बसन्ती बाई, शारदाबाई, सुनिताबाई पुत्रीया रामनाथ हि. 1/8 जाति माली नि. गांव खातेदार।
				577	निजी	चाही दोयम	0.0044	बद्रीलाल पुत्र घीसा, गीताबाई पुत्री घीसा, जड़ाव बाई बेवा घीसा हि.ब. 1/3 देवीलाल 1/3 जयप्रसाद, मदन पुत्र कालू, सुन्दरबाई पुत्री कालू बजरंग बाई बेवा कालू हि. 1/3 हि.ब. जाति माली निवासी गांव खातेदार।
				578	निजी	गे.मु. आबादी	0.0032	बद्रीलाल पुत्र घीसा, गीताबाई पुत्री घीसा, जड़ाव बाई बेवा घीसा हि.ब. 1/3 देवीलाल 1/3 जयप्रसाद, मदन पुत्र कालू, सुन्दरबाई पुत्री कालू बजरंग बाई बेवा कालू हि. 1/3 हि.ब. जाति माली निवासी गांव खातेदार।
				579	निजी	माल सोयम	0.0126	बद्रीलाल पुत्र घीसा, गीताबाई पुत्री घीसा, जड़ाव बाई बेवा घीसा हि.ब. 1/3 देवीलाल 1/3 जयप्रसाद, मदन पुत्र कालू, सुन्दरबाई पुत्री कालू बजरंग बाई बेवा कालू हि. 1/3 हि.ब. जाति माली निवासी गांव खातेदार।
				664	निजी	गे.मु. चाह	0.0041	बद्रीलाल, प्रभूलाल, रामनारायण, भंवरलाल पुत्र रामचन्द्र जाति माली नि. गांव खातेदार।
				666	निजी	बीड़	0.0355	बद्रीलाल, प्रभूलाल, रामनारायण, भंवरलाल पुत्र रामचन्द्र जाति माली नि. गांव खातेदार।
				667	निजी	गे.मु. आबादी	0.0111	बद्रीलाल, प्रभूलाल, रामनारायण, भंवरलाल पुत्र रामचन्द्र जाति माली नि. गांव खातेदार।
				668	निजी	गे.मु. खलियान	0.0168	बद्रीलाल, प्रभूलाल, रामनारायण, भंवरलाल पुत्र रामचन्द्र जाति माली नि. गांव खातेदार।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1232	निजी	बीड़	0.0268	बनवारीलाल, हरिमोहन, परमेश्वर पुत्र श्यामसुन्दर मोहनबाई बेवा श्यामसुन्दर हि. 1/3 में समभाग रामदयाल, रामप्रसाद पुत्र जयलाल जाति ब्राह्मण नि. गांव हि. 2/3 में समभाग।
				1234	निजी	गे.मु. चाह	0.0046	बनवारीलाल, हरिमोहन, परमेश्वर पुत्र श्यामसुन्दर मोहनबाई बेवा श्यामसुन्दर हि. 1/3 में समभाग रामदयाल, रामप्रसाद पुत्र जयलाल जाति ब्राह्मण नि. गांव हि. 2/3 में समभाग।
				700	निजी	चाही उत्तम	0.0090	बृजमोहन, हरीशचन्द्र पुत्र रामगोपाल, लक्ष्मीबाई बेवा रामगोपाल जाति माली सा. देह खातेदार।
				610	निजी	गे.मु. चाह	0.0126	भगवती प्रसाद, चन्द्रशेखर पिता भंवरलाल जाति माली सा. देह हि.ब. हि. 1/2 रामलाल, रमेश पुत्र पन्नालाल, सगुनबाई पुत्री पन्नालाल, नूदंबाई बेवा पन्नालाल हि.ब. हि. 1/2 सा. देह खातेदार।
				608	निजी	चाही प्रथम	0.0300	भगवती प्रसाद, चन्द्रशेखर पिता भंवरलाल जाति माली सा. देह हि.ब. खातेदार।
				893	निजी	माल सोयम	0.0387	भवानीशंकर, रामप्रसाद पुत्र नारायण जगन्नाथी बाई बेवा नारायण हि. 1/2 कस्तूरी पुत्र नन्दा हि. 1/4 धापूबाई पत्नी भवानीशंकर हि. 1/4 जाति मीणा नि. गांव खातेदार।
				901	निजी	माल दोयम	0.0292	भैरुलाल पुत्र देवा जाति माली सा. देह खातेदार।
				696	निजी	बीड़	0.0108	भैरुलाल पुत्र देवा हि. 1/3 कालू पुत्र भंवरलाल, केशोराम लक्ष्मी नारायण पुत्र उदा हि. 1/6 बृजमोहन, हरीशचन्द्र पुत्र रामगोपाल, लछमा बाई बेवा रामगोपाल हि. 1/18 जयलाल पुत्र दूधा कमलाबाई पुत्री दूधा हि. 1/9 हि.ब. श्रीकिशन पुत्र काना हि. 1/8 रामप्यारी पुत्री काना हि. 1/24 सत्यनारायण पुत्र भैरु रामचन्द्रा बाई बेवा भैरु हि. 1/12 समभाग देवीलाल, कैलाश पि. नानूराम, कंवरीबाई, कांतिबाई मोहनीबाई प्रेमबाई पुत्रियां नानूराम हि. 1/12 जाति माली नि. गांव खातेदार।
				699	निजी	गे.मु. खाबादी	0.0077	भैरुलाल पुत्र देवा हि. 1/3 कालू पुत्र भंवरलाल, केशोराम लक्ष्मी नारायण पुत्र उदा हि. 1/6 बृजमोहन, हरीशचन्द्र पुत्र रामगोपाल, लछमा बाई बेवा रामगोपाल हि. 1/18 जयलाल पुत्र दूधा कमलाबाई पुत्री दूधा हि. 1/9 हि.ब. श्रीकिशन पुत्र काना हि. 1/8 रामप्यारी पुत्री काना हि. 1/24 सत्यनारायण पुत्र भैरु रामचन्द्रा बाई बेवा भैरु हि. 1/12 समभाग देवीलाल, कैलाश पि. नानूराम, कंवरीबाई, कांतिबाई मोहनीबाई प्रेमबाई पुत्रियां नानूराम हि. 1/12 जाति माली नि. गांव खातेदार।
				913	निजी	बीड़	0.0052	बदीलाल पुत्र देवलाल, कैलाशचन्द्र, रमेशचन्द्र, कान्ती बाई, कलावती बाई पुत्रीया मदनलाल व दुर्गाशंकर, ललित पुत्र देवीलाल, श्यामा बाई, भरोस बाई, धापूबाई, इन्द्रा बाई, मंजूबाई, सीमाबाई पुत्रीया देवीलाल, रामकन्या बाई बेवा देवीलाल हि. 3/4 समभाग ओमप्रकाश, प्रकाशचन्द्र, हेमराज पुत्र कालू लाल लीला बाई, गुडीबाई पुत्रीया कालू लाल हि. 1/4 हि.ब. जाति माली नि. गांव खातेदार।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				583	निजी	चाही दोयम	0.0265	मांगीलाल पुत्र रामचन्द्र हि. 1/4 कामेर पुत्री सनचन्द्र हि. 1/4 जाति बैरागी सा. देह मुस्ताक अली अखार अली पुत्र महमूद अली हि. 1/2 जाति सेयद मुसलमान सा. झालरापाटन खातेदार।
				914	निजी	गे.मु. चाह	0.0081	मांगीलाल पुत्र घीसा हि. 1/2 सत्यनारायण, मन्नु लोकेश लालचन्द बालचन्द पुत्र भंवरलाल सन्तोष, शान्ती पुत्रियां भंवरलाल, कमलाबाई बेवा भंवरलाल हि. 1/2 जाति माली निवासी गांव समभाग खातेदार।
				915	निजी	बीड़	0.0402	मांगीलाल पुत्र घीसा हि. 1/2 सत्यनारायण, मन्नु लोकेश लालचन्द बालचन्द पुत्र भंवरलाल सन्तोष, शान्ती पुत्रियां भंवरलाल, कमलाबाई बेवा भंवरलाल हि. 1/2 जाति माली निवासी गांव समभाग खातेदार।
				584	निजी	गे.मु. चाह	0.0132	मांगीलाल, बल्लभ पुत्र रामचन्द्र, कमला कामेर पुत्रियां रामचन्द्र जाति बैरागी हि.ब. नि. गांव खातेदार।
				1500/931	निजी	माल सोयम	0.0168	मोहनबाई पत्नी जगदीश चन्द जाति मीणा सा. बड़बेला खातेदार।
				630	निजी	बीड़	0.0105	रतनलाल पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राह्मण नि. गांव खातेदार।
				631	निजी	गे.मु. चाह	0.0132	रतनलाल पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राह्मण नि. गांव खातेदार।
				894	निजी	माल सोयम	0.0592	रविन्द्र कुमार पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण नि. कनवाड़ा हाल गांव खातेदार।
				933	निजी	गे.मु. चाह	0.0043	रामकिशन, लक्ष्मीनारायण, श्रीराम, बजरंग सिंह पिता नाथूलाल, प्रेमबाई पुत्री नाथूलाल पूनमचन्द्र पुत्र देराम, गायत्री, कमोद, मंजू, नाबा. पुत्री देराम वलिया राधाबाई माता खुद राधाबाई बेवा देराम हि. 1/10 दुर्गालाल सत्यनारायण पुत्र रामचन्द्र राधाबाई बेवा रामचन्द्र हि. 1/10 देराम पि. केसरिया हि. 1/10 नाबा. सरपरस्त नाथूलाल पिता खुद सरदारबाई पुत्री रतनलाल हरलाल पुत्र नन्दा 1/10 समभाग हरीलाल पुत्र नन्दा हि. 1/10 मैरु पुत्र जगन्नाथ हि. 1/2 जाति मीणा नि. गांव खातेदार।
				940	निजी	बीड़	0.0210	रामकिशन, लक्ष्मीनारायण, श्रीराम, बजरंग सिंह पिता नाथूलाल, प्रेमबाई पुत्री नाथूलाल पूनमचन्द्र पुत्र देराम, गायत्री, कमोद, मंजू, नाबा. पुत्री देराम वलिया राधाबाई माता खुद राधाबाई बेवा देराम हि. 1/10 दुर्गालाल सत्यनारायण पुत्र रामचन्द्र राधाबाई बेवा रामचन्द्र हि. 1/10 देराम पि. केसरिया हि. 1/10 नाबा. सरपरस्त नाथूलाल पिता खुद सरदारबाई पुत्री रतनलाल हरलाल पुत्र नन्दा 1/10 समभाग हरीलाल पुत्र नन्दा हि. 1/10 मैरु पुत्र जगन्नाथ हि. 1/2 जाति मीणा नि. गांव खातेदार।
				1235	निजी	बीड़	0.0253	रामचन्द्र, हीराचन्द्र, किशनलाल जाति कुल्मी नि. गांव खातेदार।
				1237	निजी	बीड़	0.0210	रामचन्द्र, हीराचन्द्र, किशनलाल जाति कुल्मी नि. गांव खातेदार।
				1231	निजी	बारानी दोयम	0.0035	रामदयाल पुत्र जयलाल जाति ब्राह्मण नि. गांव खातेदार।
				1284	निजी	माल सोयम	0.0084	रामप्रसाद पुत्र मदनलाल जाति भील नि. जुनाखड़ा खातेदार।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				609	निजी	गे.मु. आबादी	0.0066	रामलाल, रमेश पुत्र पन्नालाल, सगुन बाई पुत्री पन्नालाल, नन्दूबाई बेवा पन्नालाल जाति लुहार नि. गांव खातेदार।
				616	निजी	बीड़	0.0062	रामलाल, रमेश पुत्र पन्नालाल, सगुन बाई पुत्री पन्नालाल, नन्दूबाई बेवा पन्नालाल जाति लुहार नि. गांव खातेदार।
				1441 / 1005	निजी	बीड़	0.0054	रामस्वरूप पुत्र मांगीलाल हि. 7/20 कौशल्याबाई पुत्री मांगीलाल हि. 3/20 जाति भील नि. गांव मदनलाल पि. मांगीलाल जाति मीणा नि. झालरापाटन हि. 1/2 खातेदार।
				1458 / 1030	निजी	बीड़	0.0038	रामस्वरूप पुत्र मांगीलाल हि. 7/20 कौशल्याबाई पुत्री मांगीलाल हि. 3/20 जाति भील नि. गांव मदनलाल पि. मांगीलाल जाति मीणा नि. झालरापाटन हि. 1/2 खातेदार।
				585	निजी	माल प्रथम/बीड़	0.0150	शम्भूलाल पुत्र नन्दलाल कलावती बाई, प्रेमबाई पुत्रियां नन्दलाल, केसरबाई बेवा नन्दलाल जाति बैरागी निवासी गांव खातेदार।
				1251	निजी	चाही प्रथम/बीड़	0.0205	शम्भूलाल पुत्र नन्दलाल कलावती बाई, प्रेमबाई पुत्रियां नन्दलाल, केसरबाई बेवा नन्दलाल जाति बैरागी निवासी गांव खातेदार।
				1244	निजी	बीड़	0.0120	शम्भूलाल पुत्र भेरू, पार्वतीबाई, कान्तीबाई पुत्रियां भेरू जाति माली नि. गांव खातेदार।
				1245	निजी	बीड़	0.0110	शम्भूलाल पुत्र भेरू, पार्वतीबाई, कान्तीबाई पुत्रियां भेरू जाति माली नि. गांव खातेदार।
				1246	निजी	चाही प्रथम	0.0097	शम्भूलाल पुत्र भेरू, पार्वतीबाई, कान्तीबाई पुत्रियां भेरू जाति माली नि. गांव खातेदार।
				1000	सरकारी	चारागाह	0.0274	चारागाह
				992	सरकारी	गे.मु. आबादी	0.0034	आबादी ग्राम पंचायत इकतासा
				993	सरकारी	गे.मु. आबादी	0.0096	आबादी ग्राम पंचायत इकतासा
				994	सरकारी	गे.मु. आबादी	0.0063	आबादी ग्राम पंचायत इकतासा
				995	सरकारी	गे.मु. आबादी	0.0206	आबादी ग्राम पंचायत इकतासा
				996	सरकारी	गे.मु. आबादी	0.0110	आबादी ग्राम पंचायत इकतासा
				997	सरकारी	गे.मु. आबादी	0.0355	आबादी ग्राम पंचायत इकतासा
				919	सरकारी	गे.मु. कुई	0.0084	प्राथमिक विद्यालय, प.स. झालरापाटन
				921	सरकारी	गे.मु. स्कूल	0.0159	प्राथमिक विद्यालय, प.स. झालरापाटन
				1299	सरकारी	गे.मु. सड़क	0.0012	महकमां सार्वजनिक निर्माण विभाग
				617	सरकारी	गे.मु. नाली	0.0139	राजस्थान सरकार खाता (सिवायचक)
				618	सरकारी	गे.मु. नाली	0.0033	राजस्थान सरकार खाता (सिवायचक)
				925	सरकारी	गे.मु. नाली	0.0257	राजस्थान सरकार खाता (सिवायचक)
				998	सरकारी	गे.मु. नाली	0.0105	राजस्थान सरकार खाता (सिवायचक)
				1128	सरकारी	गे.मु. नाली	0.0049	राजस्थान सरकार खाता (सिवायचक)
				924	सरकारी	गे.मु. आबादी	0.0042	राजस्थान सरकार खाता (सिवायचक)
				1031	सरकारी	गे.मु. आबादी	0.0268	राजस्थान सरकार खाता (सिवायचक)
				1032	सरकारी	गे.मु. आबादी	0.0074	राजस्थान सरकार खाता (सिवायचक)
				1033	सरकारी	गे.मु. आबादी	0.0075	राजस्थान सरकार खाता (सिवायचक)
				1034	सरकारी	गे.मु. आबादी	0.0034	राजस्थान सरकार खाता (सिवायचक)
				1036	सरकारी	गे.मु. आबादी	0.0104	राजस्थान सरकार खाता (सिवायचक)
				602	सरकारी	गे.मु. रास्ता	0.0024	राजस्थान सरकार खाता (सिवायचक)
				687	सरकारी	गे.मु. रास्ता	0.0030	राजस्थान सरकार खाता (सिवायचक)
				923	सरकारी	गे.मु. रास्ता	0.0065	राजस्थान सरकार खाता (सिवायचक)
				1125	सरकारी	गे.मु. रास्ता	0.0025	राजस्थान सरकार खाता (सिवायचक)
			(4) असनावर	2035 / 248	निजी	माल प्रथम	0.0152	कन्याबाई पत्नी कल्याणप्रसाद कोम तेली सा. देह खातेदार।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				220	निजी	बीड़	0.0160	द्वारका प्रसाद, रामदयाल, अनिल कुमार पुत्र लालचन्द, सुगनबाई, सुमित्रा बाई पुत्रीया लालचन्द जाति महाजन हि.ब. सा. देह खातेदार।
				221	निजी	बीड़	0.0112	द्वारका प्रसाद, रामदयाल, अनिल कुमार पुत्र लालचन्द, सुगनबाई, सुमित्रा बाई पुत्रीया लालचन्द जाति महाजन हि.ब. सा. देह खातेदार।
				222	निजी	चाही प्रथम/जाव प्रथम	0.0092	द्वारका प्रसाद, रामदयाल, अनिल कुमार पुत्र लालचन्द, सुगनबाई, सुमित्रा बाई पुत्रीया लालचन्द जाति महाजन हि.ब. सा. देह खातेदार।
				224	निजी	चाही प्रथम	0.0207	द्वारका प्रसाद, रामदयाल, अनिल कुमार पुत्र लालचन्द, सुगनबाई, सुमित्रा बाई पुत्रीया लालचन्द जाति महाजन हि.ब. सा. देह खातेदार।
				225	निजी	चाही प्रथम/जाव प्रथम	0.0378	द्वारका प्रसाद, रामदयाल, अनिल कुमार पुत्र लालचन्द, सुगनबाई, सुमित्रा बाई पुत्रीया लालचन्द जाति महाजन हि.ब. सा. देह खातेदार।
				247 / 1	निजी	माल प्रथम	0.0429	कल्याण पुत्र गजानन्द जाति तेली सा. देह खातेदार।
				247 / 2	निजी	माल प्रथम	0.0143	धन्नालाल पुत्र कंवरलाल जाति तेली सा. देह खातेदार।
				247 / 3	निजी	माल प्रथम	0.0143	लालू पुत्र कंवरलाल जाति तेली सा. देह खातेदार।
				247 / 4	निजी	माल प्रथम	0.0143	प्रेमबाई पत्नी प्रेमचन्द जाति तेली सा. देह खातेदार।
				116	निजी	माल प्रथम	0.0020	नन्दकिशोर, ओमप्रकाश पिता हरिबल्लभ हि 1/2 समभाग नरेन्द्र कुमार पुत्र हरिबल्लभ हि. 1/2 जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार।
				112	निजी	माल प्रथम	0.0958	नरेन्द्र कुमार, राजेन्द्र कुमार पुत्र रामगोपाल जाति कुल्मी सा. जूनाखेड़ा खातेदार।
				249	निजी	माल प्रथम	0.0540	बंशीलाल पुत्र नन्दलाल हि. 1/2 रामगोपाल जानकीलाल पुत्र प्रभूलाल सुमित्रा बाई, कमलाबाई पुत्रियां प्रभूलाल हि. 1/2 हि.ब.
				109	निजी	माल प्रथम	0.1533	बजरंगलाल, भारत कुमार पिता बापूलाल बदाम बाई बेवा बापूलाल हि. 1/5 प्रभूलाल पुत्र नाथू हि. 1/5 नन्दा पुत्र गुलाब हि. 1/5 जाति मीणा, बापूलाल पुत्र बालाराम जाति भील हि. 2/5 सा. देह खातेदार।
				108	निजी	माल प्रथम	0.0820	बद्रीलाल, प्रभूलाल, रामनारायण, मंवरलाल पुत्र रामचन्द्र जाति माली सा. इकतासा खातेदार।
				250	निजी	बारानी सोयम	0.0806	मुमताज पि. महमूद अली कोम मुसलमान हि. 1/2 रामगोपाल जानकीलाल पुत्र प्रभूलाल, सुमित्रा बाई, कमलाबाई पुत्रियां प्रभूलाल व भूलीबाई पत्नी स्व. प्रभूलाल हि. 1/2 कोम कुल्मी सा. जूनाखेड़ा खातेदार।
				236	निजी	माल दोयम	0.0208	मोहनलाल, बंशीलाल पुत्र हीरा जाति कलाल सा. देह खातेदार।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				241	निजी	चाही प्रथम	0.0177	मन्नीबाई बेवा मदनलाल हि. 1/5 लीलाबाई, प्रेमबाई पुत्रिया मदनलाल हि. 2/5 हि.ब. ओमप्रकाश, सुरेशचन्द्र पुत्र कृष्णगोपाल, सुनिता, सीमा, अंजु, शीतल पुत्रिया कृष्णगोपाल कान्ती बाई बेवा कृष्ण गोपाल हि. 1/5 हि.ब. राधिका, रचना, पायल पुत्रिया सोभागचन्द्र, सुगन बाई बेवा सोभागचन्द्र हि. 1/5 हि. ब. जाति महाजन सा. देह खातेदार।
				242	निजी	चाही प्रथम	0.0572	मन्नीबाई बेवा मदनलाल हि. 1/5 लीलाबाई, प्रेमबाई पुत्रिया मदनलाल हि. 2/5 हि.ब. ओमप्रकाश, सुरेशचन्द्र पुत्र कृष्णगोपाल, सुनिता, सीमा, अंजु, शीतल पुत्रिया कृष्णगोपाल कान्ती बाई बेवा कृष्ण गोपाल हि. 1/5 हि.ब. राधिका, रचना, पायल पुत्रिया सोभागचन्द्र, सुगन बाई बेवा सोभागचन्द्र हि. 1/5 हि. ब. जाति महाजन सा. देह खातेदार।
				120	निजी	गे.मु. चाह	0.0106	मोहनलाल, ओमप्रकाश, रमेशचन्द्र पुत्र मांग्या, कंचनबाई पत्नी स्व. मांग्या सन्तू कुमार, रामदयाल पुत्र रामप्रसाद नाबा. ललता बाई पत्नी स्व. रामप्रसाद नाबा. की वली माता ललताबाई खुद हि. 1/3 में समभाग श्रीराम, कैलाशचन्द्र, राजूलाल, सत्यनारायण पुत्र किशोर, बसन्तीबाई पुत्री किशोर ग्यारसीबाई पत्नी किशोर हि. 1/3 में हि.ब. कंवरलाल पुत्र दल्ला, मांगीबाई, धापूबाई, चन्दाबाई पुत्रीया दल्ला, रामप्यारी बाई पत्नी स्व. दल्ला हि. 1/3 जाति तेली सा. देह खातेदार।
				119	निजी	बंजड़	0.0506	मोहनलाल, ओमप्रकाश, रमेशचन्द्र पुत्र मांग्या, कंचनबाई पत्नी स्व. मांग्या सन्तू कुमार, रामदयाल पुत्र रामप्रसाद नाबा. ललता बाई पत्नी स्व. रामप्रसाद नाबा. की वली माता ललताबाई खुद हि. 1/3 में समभाग श्रीराम, कैलाशचन्द्र, राजूलाल, सत्यनारायण पुत्र किशोर, बसन्तीबाई पुत्री किशोर ग्यारसीबाई पत्नी किशोर हि. 1/3 में हि.ब. कंवरलाल पुत्र दल्ला, मांगीबाई, धापूबाई, चन्दाबाई पुत्रीया दल्ला, रामप्यारी बाई पत्नी स्व. दल्ला हि. 1/3 जाति तेली सा. देह खातेदार।
				244	निजी	बंजड़	0.0448	मोहनलाल पुत्र बिरधीलाल जाति कुल्मी सा. जूनाखेड़ा खातेदार।
				246	निजी	माल प्रथम	0.0216	मोहनलाल पुत्र बिरधीलाल जाति कुल्मी सा. जूनाखेड़ा खातेदार।
				563	निजी	गे.मु. ओडी	0.0083	राजू, धनश्याम, हेमन्त पुत्र कंवरलाल म. भूलीबाई बेवा कंवरलाल संतोषबाई पुत्री कंवरलाल प्रभूनाथ पुत्र गोरखनाथ, रामा पुत्र भवाना कोम नाथ सा. देह खातेदार।
				501	निजी	बंजड़	0.0085	राजेश कुमार, रिशीकुमार पिता माणकचंद जाति महाजन सा. देह खातेदार।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2034/248	निजी	माल प्रथम	0.0030	रामगोपाल, राजेन्द्र, चौधमल, अशोक कुमार पुत्र माधो हि. 7/8 राम, सुखीबाई पत्नी माधो हि. 1/8 कोम तेली सा. देह खातेदार।
				1237	निजी	चाही उत्तम	0.0217	विद्याबाई बेवा देवीचरण हि. 1/3, रामस्वरूप, श्यामस्वरूप पि. मांगीलाल हि. 2/3 जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार।
				1261	सरकारी	गे.मु.	0.0171	शिक्षा विभाग
				1262	सरकारी	गे.मु. क्रीडास्थल	0.0701	शिक्षा विभाग
				208	सरकारी	बंजड़	0.0029	सिंचाई विभाग
				121	सरकारी	चाही प्रथम	0.0433	सिंचाई विभाग
				122	सरकारी	चाही प्रथम	0.0060	सिंचाई विभाग
				206	सरकारी	बंजड़	0.0209	सिंचाई विभाग
				205	सरकारी	चाही उत्तम	0.0250	सिंचाई विभाग
				199	सरकारी	गे.मु. मकान	0.0036	सिंचाई विभाग
				360	सरकारी	बीड़	0.0122	सिंचाई विभाग
				367	सरकारी	चाही उत्तम/जाव उत्तम	0.0369	सिंचाई विभाग
				363	सरकारी	चाही प्रथम/जाव प्रथम	0.0629	सिंचाई विभाग
				198/1870	सरकारी	चाही प्रथम	0.0020	सिंचाई विभाग
				384	सरकारी	बंजड़	0.0287	सिंचाई विभाग
				204	सरकारी	चाही उत्तम/जाव उत्तम	0.0220	सिंचाई विभाग
				396	सरकारी	बंजड़	0.0036	सिंचाई विभाग
				1229	सरकारी	चाही उत्तम/जाव उत्तम	0.0393	सिंचाई विभाग
				1259	सरकारी	गे.मु. खाल	0.0104	सिंचाई विभाग
				1260	सरकारी	बारानी दायम	0.0316	सिंचाई विभाग
				118/1860	सरकारी	बारानी प्रथम	0.0107	सिंचाई विभाग
				569/1869	सरकारी	बंजड़	0.0127	सिंचाई विभाग
				568/1867	सरकारी	चाही उत्तम	0.0544	सिंचाई विभाग
				557/1730	सरकारी	चाही उत्तम	0.0316	सिंचाई विभाग
				566/1734	सरकारी	चाही उत्तम	0.0134	सिंचाई विभाग
				1221/1941	सरकारी	चाही उत्तम	0.0466	सिंचाई विभाग
				1225/1943	सरकारी	चाही उत्तम	0.0465	सिंचाई विभाग
				1224/1770	सरकारी	बारानी सौयम	0.0072	सिंचाई विभाग
				203/1627	सरकारी	चाही उत्तम	0.0091	सिंचाई विभाग
				558/1732	सरकारी	चाही उत्तम	0.0136	सिंचाई विभाग
				1211	सरकारी	गे.मु. रास्ता	0.0171	राजस्थान सरकार (सिवायचक)
				201	सरकारी	गे.मु. रास्ता	0.0367	राजस्थान सरकार (सिवायचक)
				362	सरकारी	गे.मु. रास्ता	0.0096	राजस्थान सरकार (सिवायचक)
				499	सरकारी	गे.मु.	0.0573	राजस्थान सरकार (सिवायचक)
				508	सरकारी	गे.मु. रास्ता	0.0063	राजस्थान सरकार (सिवायचक)
				564	सरकारी	बंजड़	0.0049	राजस्थान सरकार (सिवायचक)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1331	सरकारी	गे.मु. नदी	0.0387	राजस्थान सरकार (सिवायचक)
				1214	सरकारी	गे.मु.	0.0239	राजस्थान सरकार (सिवायचक)
				1215	सरकारी	गे.मु.	0.0699	राजस्थान सरकार (सिवायचक)
				1220	सरकारी	बंजड़	0.0187	राजस्थान सरकार (सिवायचक)
				217	सरकारी	गे.मु. नाना	0.0026	राजस्थान सरकार (सिवायचक)
				1263	सरकारी	गे.मु. आबादी	0.0750	राजस्थान सरकार (सिवायचक)
				1379	सरकारी	गे.मु. आबादी	0.0814	राजस्थान सरकार (सिवायचक)
				1380	सरकारी	गे.मु. आबादी	0.0981	राजस्थान सरकार (सिवायचक)
				117 / 1620	सरकारी	बंजड़	0.0506	राजस्थान सरकार (सिवायचक)
				1210 / 1840	सरकारी	गे.मु. आबादी	0.4229	राजस्थान सरकार (सिवायचक)
				1206 / 1836	सरकारी	गे.मु. आबादी	0.0650	राजस्थान सरकार (सिवायचक)
				1205 / 1834	सरकारी	गे.मु. आबादी	0.1778	राजस्थान सरकार (सिवायचक)
				2025 / 1202	सरकारी	गे.मु. आबादी	0.0064	राजस्थान सरकार (सिवायचक)
				2028 / 1203	सरकारी	गे.मु. आबादी	0.0759	राजस्थान सरकार (सिवायचक)
				1495 / 1602	सरकारी	गे.मु. आबादी	0.1538	राजस्थान सरकार (सिवायचक)
				1496 / 1966	सरकारी	गे.मु. आबादी	0.2029	राजस्थान सरकार (सिवायचक)
			(5) नया गांव मानपुरा	363 / 286	निजी	बारानी सोयम	0.0090	अमरलाल प्रभूलाल पिस. कान्हा कंचनबाई, गंगाबाई पुत्रियां कान्हा दाखा बाई बेवा कान्हा जाति मोग्या नि. आनन्दा खातेदार।
				364 / 286	निजी	बारानी सोयम	0.0090	कालूलाल पि. मन्ना, मांगीबाई गायत्रीबाई पुत्रियां मन्ना पूरीबाई पत्नी स्व. मन्ना जाति मोग्या सा. आनन्दा खातेदार।
				282	निजी	बारानी प्रथम	0.0317	रामप्रसाद पिता चम्पालाल कोम कुल्मी सा. आनन्दा खातेदार।
				284	निजी	बारानी प्रथम	0.0150	रामप्रसाद पिता चम्पालाल कोम कुल्मी सा. आनन्दा खातेदार।
				285	निजी	बीड़	0.0158	रामप्रसाद पिता चम्पालाल कोम कुल्मी सा. आनन्दा खातेदार।
				279	सरकारी	चारागाह	0.0514	चारागाह व अन्य सामान्य कार्य हेतु
				280	सरकारी	चारागाह	0.0648	चारागाह व अन्य सामान्य कार्य हेतु
			(6) तलवाडिया	172	निजी	बीड़	0.0165	अनिल कुमार गुप्ता पिता लालचन्द गुप्ता जाति अग्रवाल नि. असनावर खातेदार।
				332 / 110	निजी	जाव सोयम	0.0046	कन्हैया पिता रामचन्द्र कोम कहार सा. देह खातेदार।
				337 / 159	निजी	बारानी प्रथम	0.0050	कन्हैया पिता रामचन्द्र कोम कहार सा. देह खातेदार।
				109	निजी	बीड़	0.0183	कन्हैया पिता रामचन्द्र कोम कहार सा. देह खातेदार।
				171	निजी	बारानी प्रथम	0.0316	कान्हा, कवरलाल पिता हीरा कोम कुल्मी सा. आनन्दा खातेदार।
				334 / 110	निजी	चाही सोयम/जाव सोयम	0.0178	प्रेम पिता रामचन्द्र जाति कहार सा. देह खातेदार।
				336 / 111	निजी	जाव सोयम	0.0100	प्रेम पिता रामचन्द्र जाति कहार सा. देह खातेदार।
				338 / 159	निजी	बारानी प्रथम	0.0066	प्रेम पिता रामचन्द्र जाति कहार सा. देह खातेदार।
				160	निजी	बीड़	0.0391	बापूलाल पिता भैरूदास जाति बैरागी सा. देह खातेदार।



1	2	3	4	5	6	7	8	9
				162	निजी	चाही दोयम	0.0160	बापूलाल पिता मैरुदास जाति बैरागी सा. देह खातेदार।
				173	निजी	बीड़	0.1552	मंगेतराम, जेठी पिता हंसराज जेठी जाति खत्री नि. अकलेरा तह. अकलेरा खातेदार।
				333/110	निजी	जाव सोयम	0.0127	मोहनलाल पिता रामचन्द्र जाति कहार सा. देह खातेदार।
				174	निजी	बीड़	0.0088	मोहनलाल, अनार सिंह पिता रुघनाथ मांगीबाई बेवा रुघनाथ, लाल सिंह पिता गोपाल कोम गूजर सा. देह खातेदार।
				335/111	निजी	जाव सोयम/चाही सोयम	0.0134	राधेश्याम पिता रामचन्द्र जाति कहार सा. देह खातेदार।
				339/159	निजी	बारानी प्रथम	0.0050	राधेश्याम पिता रामचन्द्र जाति कहार सा. देह खातेदार।
				112	निजी	चाही सोयम	0.0165	रामदयाल पुत्र बापूलाल मंजू पुत्री बापू रामप्यारी बाई बेवा बापू सा. देह हि.ब. कोम कहार खातेदार।
				340/159	निजी	बारानी प्रथम	0.0050	रामदयाल पुत्र बापूलाल मंजू पुत्री बापू रामप्यारी बाई बेवा बापू सा. देह हि.ब. कोम कहार खातेदार।
				285	निजी	बारानी सोयम	0.0048	रामप्रसाद पिता चम्पालाल कोम कुल्मी सा. आनन्दा खातेदार।
				170	निजी	जाव दोयम/चाही दोयम	0.0156	हेमराज, सुजान पुत्र रतनलाल, गीताबाई, गुड्डी बाई पुत्रीया रतनलाल, मनफूलबाई पत्नी स्व. रतनलाल हि. ब. कोम गूजर सा. देह खातेदार।
				157	सरकारी	चारागाह	0.0592	चारागाह व अन्य सामान्य कार्य हेतु।
				331/119	सरकारी	चारागाह	0.3712	चारागाह व अन्य सामान्य कार्य हेतु।
				161	सरकारी	गे.मु. चाह	0.0050	राजस्थान सरकार (सिवायचक)
				116	सरकारी	गे.मु. रास्ता	0.0300	राजस्थान सरकार (सिवायचक)
				103	सरकारी	बंजड़ ना.का.का.	0.0200	राजस्थान सरकार (सिवायचक)
				106	सरकारी	बंजड़ ना.का.का.	0.0088	राजस्थान सरकार (सिवायचक)
				113	सरकारी	बंजड़ ना.का.का.	0.1064	राजस्थान सरकार (सिवायचक)
				115	सरकारी	बंजड़ ना.का.का.	0.1100	राजस्थान सरकार (सिवायचक)
				279	सरकारी	बंजड़ ना.का.का.	0.0356	राजस्थान सरकार (सिवायचक)
				326/158	सरकारी	बंजड़	0.0323	राजस्थान सरकार (सिवायचक)
			(7) मोहम्मदपुरा	189	निजी	बीड़	0.0096	कंवरलाल, रतनलाल, रामप्रताप पुत्र नारायण, भूरीबाई पुत्री नारायण जाति भील निवासी आनन्दा खातेदार।
				190	निजी	बारानी सोयम	0.0600	कंवरलाल, रतनलाल, रामप्रताप पुत्र नारायण, भूरीबाई पुत्री नारायण जाति भील निवासी आनन्दा खातेदार।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				187	निजी	बारानी सोयम	0.0960	बद्रीलाल, रामेश्वर लाल, द्वारकालाल पुत्र बालाराम हि. 3/4 हि. ब. विशाल, राकेश पि. मोहनलाल, कृष्णाबाई पत्नी स्व. मोहनलाल हि. 1/4 जाति कुल्मी नि. आनन्दा खातेदार।
				276/179	निजी	बारानी दोयम	0.0039	मोहनीबाई पत्नी रमेशचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी गांव खातेदार।
				279/180	निजी	बीड़	0.0875	मोहनीबाई पत्नी रमेशचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी गांव खातेदार।
				184	निजी	बीड़	0.0460	रामनारायण, कैलाशचन्द्र बालिग पूरीलाल नाबा. पुत्र धीसा नाबा. का वली रामनारायण भ्राता जाति मेघवाल खातेदार।
				193	निजी	बीड़	0.1150	लालचन्द पुत्र बापूलाल जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार।
				278/180	निजी	बीड़	0.0126	हेमन्त कुमार पि. कैलाशचन्द्र जैन जाति अग्रवाल नि. असनावर खातेदार।
				191	सरकारी	माल दोयम	0.0721	राजस्थान सरकार (सिवायचक)
				272/185	सरकारी	बंजड़	0.0280	राजस्थान सरकार (सिवायचक)
			(8) आनन्दा	138	सरकारी	चारागाह	0.0500	चारागाह व सामान्य कार्य हेतु।
				140	सरकारी	चारागाह	0.0760	चारागाह व सामान्य कार्य हेतु।
				143	सरकारी	चारागाह	0.0297	चारागाह व सामान्य कार्य हेतु।
				142	सरकारी	बारानी सोयम	0.0050	राजस्थान सरकार (सिवायचक)
				147	सरकारी	गे.मु. रास्ता	0.0056	राजस्थान सरकार (सिवायचक)
			(9) डूंगरगाव	328	निजी	बारानी सोयम	0.0070	ऊँकारलाल, गोखन पुत्र गिरधारी धापूबाई गोखनीबाई पुत्रीया गिरधारी हि. 4/5 ललता बाई पुत्री नारायण रतन बाई पत्नी स्व. नारायण हि. 1/5 जाति मेहर नि. गांव खातेदार।
				397	निजी	बीड़	0.0104	उदेलाल पुत्र देवलाल हि. 1/2 बापूलाल पि. किशोर हि. 1/4 रामकरण, बालचन्द, हंसराज, परमानन्द पि. मांगीलाल, रोडीबाई पत्नि स्व. मांगीलाल हि. 1/4 जाति मेहर निवासी गांव खातेदार।
				398	निजी	बीड़	0.0093	उदेलाल पुत्र देवलाल हि. 1/2 बापूलाल पि. किशोर हि. 1/4 रामकरण, बालचन्द, हंसराज, परमानन्द पि. मांगीलाल, रोडीबाई पत्नि स्व. मांगीलाल हि. 1/4 जाति मेहर निवासी गांव खातेदार।
				324	निजी	माल दोयम	0.1175	ऑंकार, गोखन पिस. गिरधारी गोखनीबाई धापू बाई पुत्रीया गिरधारी हि. 4/5 ललता बाई पुत्री नारायण रतन बाई बेवा नारायण हि. 1/5 जाति मेहर निवासी गांव खातेदार।
				326	निजी	बीड़	0.2184	ऑंकार, गोखन पिस. गिरधारी गोखनीबाई धापू बाई पुत्रीया गिरधारी हि. 4/5 ललता बाई पुत्री नारायण रतन बाई बेवा नारायण हि. 1/5 जाति मेहर निवासी गांव खातेदार।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				266/1467	निजी	चाही प्रथम	0.1500	कंचनबाई बेवा श्रीकिशन जाति महाजन सा. देह हि. 2/3 कालूसिंह विक्रमसिंह पि. अर्जुन सिंह सोहन बाई राजूबाई पि. अर्जुन सिंह हि. 1/18 व कालूसिंह विक्रमसिंह पि. अर्जुन सिंह हि. 2/18 उमराव सिंह पिता भैरुसिंह हि. 1/6 जाति राजपूत सा. देह खातेदार
				520	निजी	गे.मु. चाह	0.0035	ककू बाई पुत्री पन्नालाल हि. 1/2 भैरुलाल, राधेश्याम पिस. कन्हैयालाल हि. 3/8 सुशीला बाई पत्नी स्व. रामगोपाल, हरीशंकर पुत्र रामगोपाल नाबा. की वली माता खुद हि. 1/8 जाति कुलमी निवासी गांव खातेदार।
				149	निजी	चाही उत्तम	0.1300	कैलाशचन्द, कमलकिशोर, गिरराज, दयाचंद पि. शिवप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी गांव खातेदार।
				148	निजी	गे.मु. चाह	0.0250	कैलाशचन्द, कमल कुमार, गिरराज, दयाराम पिस. शिवप्रसाद मोहनलाल, रतनलाल दीपचन्द फूलचन्द कैलाशचन्द रमेशचन्द पिस. लक्ष्मीनारायण धांपूबाई बेवा लक्ष्मीनारायण हि.ब. प्रेमचन्द पुत्र रामप्रसाद हि. 1/4 हरलाल, भैरुलाल पिस. सीताराम हि. 1/4 राधेश्याम, घनश्याम, रमेश, मांगीलाल पिस. भंवरलाल, अमृतलाल, राजाराम पुत्र लालचन्द, कलावती पुत्री लालचन्द, लीलाबाई बेवा लालचन्द हि. 1/4 जाति ब्राह्मण निवासी गांव प्रेमबाई पति मदनलाल जाति तेली हि. 1/4 खातेदार।
				165	निजी	चाही उत्तम	0.0336	गजानन्द पुत्र कंवरलाल जाति कुलमी निवासी गांव खातेदार।
				228	निजी	चाही प्रथम	0.2206	गजानन्द पुत्र कंवरलाल जाति कुलमी निवासी गांव खातेदार।
				252	निजी	माल प्रथम	0.0536	गिरराज प्रसाद पुत्र गजानन्द जाति पाटीदार नि. गांव खातेदार।
				323	निजी	माल दायम	0.0325	गोविन्द पि. ओंकार भंवरीबाई पुत्री ओंकार जाति नाई सा. देह खातेदार।
				325	निजी	बीड़	0.0759	गोविन्द पि. ओंकार भंवरीबाई पुत्री ओंकार जाति नाई सा. देह खातेदार।
				120/1456	निजी	बारानी सोयम	0.1391	चीत्तालाल, रामगोपाल पिस. बिहारी लाल हि. 2/3 कैलाशचन्द पुत्र लालचन्द सुमित्रा बाई, मंजुबाई फूलबाई पुत्रीया लालचन्द कंचन बाई बेवा लालचन्द हि. 1/3 जाति माली निवासी गांव खातेदार।
				13	निजी	माल दायम	0.2632	चीत्तालाल, दीलतराम, श्यामलाल पुत्र किशन, बरजीबाई, मांगीबाई पुत्रीया किशन हि. 1/4 बालचन्द पुत्र शंकर कन्याबाई पुत्री शंकर नाबा. वली गीताबाई पत्नी स्व. शंकर हि. 1/4 हि.ब. जाति ब्राह्मण नि. गांव व श्रीमती कौशल्या देवी जोजे कन्हैयालाल जाति मीणा हि. 1/2 नि. खजूरी कली खातेदार।
				550	निजी	माल दायम	0.0032	जगदीशप्रसाद पुत्र बापूलाल जाति कुलमी निवासी गांव खातेदार।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				393	निजी	बारानी प्रथम	0.0380	दुर्गाबाई पत्नी रामचन्द्र जाति मेहर सा. देह खातेदार।
				394	निजी	बीड़	0.0090	दुर्गाबाई पत्नी रामचन्द्र जाति मेहर सा. देह खातेदार।
				396	निजी	बीड़	0.0017	दुर्गाबाई पत्नी रामचन्द्र जाति मेहर सा. देह खातेदार।
				546	निजी	गे.मु. झादा	0.0100	धापू मथरी नोरंग पुत्रीया भवरी हि. 1/3 कविता नाबा. पुत्री नरोत्तम गायत्री बाई बेवा नरोत्तम नाबा. की वली दादी मागीबाई, मनोहरबाई, गायत्रीबाई पुत्रीया नानूराम, मागीबाई बेवा नानूराम हि. 1/6 बालचन्द, फूलचन्द पुत्र रामनारायण, मोहन बाई पुत्री रामनारायण, गेदी बाई बेवा रामनारायण हि. 1/9 हि. ब. हरीशचन्द्र पुत्र रामबक्ष भैवरीबाई बेवा रामबक्ष हि. 2/9 भूरीबाई, सन्तोष बाई, सोनीबाई, गीताबाई नाबा. पुत्रीया देवलाल छम्माबाई बेवा देवलाल हि. 1/6 जाति माली सा. देह खातेदार।
				177	निजी	चाही उत्तम	0.1600	नन्दलाल, कैलाशचन्द, द्वारकीलाल, पूनमचन्द, गिरराज पि. दीपचन्द सीताबाई पत्नी स्व. दीपचन्द लीला पुत्री दीपचन्द कुल्मी सा. देह खातेदार।
				263	निजी	बीड़	0.0021	कालूसिंह, विक्रमसिंह पुत्र अर्जुनसिंह हि. 2/6 कालूसिंह, विक्रमसिंह पुत्र अर्जुनसिंह, सोहनबाई, राजूबाई पुत्रियां अर्जुन सिंह हि. 1/6 उमराव सिंह पि. भैरुसिंह हि. 1/2 जाति राजपूत निवासी गांव खातेदार।
				540	निजी	चाही उत्तम	0.0081	नाथूराम, ओंकारलाल, मगनराम पिस. भंवरलाल, पारीबाई, कंचनबाई, कस्तूरी बाई पुत्रियां भंवरलाल माली सा. देह खातेदार।
				1622/157	निजी	चाही उत्तम	0.0245	पूरीलाल, मदनलाल पुत्र धूला, पार्वतीबाई पुत्री धूला रोड़ी बाई पत्नी स्व. धूला जाति माली निवासी गांव हि.ब. खातेदार।
				1761/157	निजी	चाही उत्तम	0.0426	धूला पि. भेरु जाति माली नि. गांव खातेदार।
				2	निजी	माल दोयम	0.0472	बद्रीलाल, रामेश्वर, द्वारकालाल पि. बालाराम हि. 3/4 हि.ब. नरेश कुमार, विशाल कुमार पि. मोहनलाल, कृष्णाबाई बेवा मोहनलाल हि. 1/4 हि.ब. जाति कुल्मी निवासी आनन्दा खातेदार।
				1	निजी	बारानी सोयम	0.0490	बद्रीलाल, रामेश्वर पिस. बालाराम जाति कुल्मी निवासी आनन्दा खातेदार।
				266/1468	निजी	जाव प्रथम	0.2076	बनवारी लाल पुत्र गजानन्द जाति कुल्मी निवासी गांव खातेदार।
				178	निजी	चाही उत्तम	0.2375	बल्लमलाल पुत्र गजानन्द जाति कुल्मी निवासी गांव खातेदार।
				9	निजी	माल दोयम	0.1900	बालाराम, मांगीलाल, नारायण लाल पुत्र शंकरलाल हि. 3/4 व बालाराम, मांगीलाल, नारायणलाल पुत्र शंकरलाल, गीताबाई, कंकूबाई पुत्रीयां शंकरलाल हि. 1/4 जाति कुल्मी निवासी गांव खातेदार।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				10	निजी	माल दायम	0.0566	बालाराम, मांगीलाल, नारायण लाल पुत्र शंकरलाल हि. 3/4 व बालाराम, मांगीलाल, नारायणलाल पुत्र शंकरलाल, गीताबाई, कंकूबाई पुत्रीयां शंकरलाल हि. 1/4 जाति कुल्मी निवासी गांव खातेदार।
				526	निजी	चाही उत्तम	0.3600	भैरुलाल, राधेश्याम पि. कन्हैयालाल हि. 2/3 हरीशंकर पुत्र रामगोपाल सुशीला बाई बेवा रामगोपाल हि. 1/3 जाति कुल्मी निवासी गांव खातेदार।
				541	निजी	गे.मु. झादा	0.0193	भैरुलाल, राधेश्याम पि. कन्हैयालाल हि. 2/3 हरीशंकर पुत्र रामगोपाल सुशीला बाई बेवा रामगोपाल हि. 1/3 जाति कुल्मी निवासी गांव खातेदार।
				542	निजी	बीड़	0.1585	भैरुलाल, राधेश्याम पि. कन्हैयालाल हि. 2/3 हरीशंकर पुत्र रामगोपाल सुशीला बाई बेवा रामगोपाल हि. 1/3 जाति कुल्मी निवासी गांव खातेदार।
				158	निजी	चाही उत्तम	0.0461	मांगीलाल पिता किशना जाति माली सा. देह खातेदार।
				1760 / 157	निजी	चाही उत्तम	0.0379	मांगीलाल पिता किशना जाति माली सा. देह खातेदार।
				150	निजी	चाही उत्तम	0.0120	मोहनलाल, रतनलाल, दीपचन्द, फूलचन्द, कैलाशचन्द, रमेशचन्द पि. लक्ष्मीनारायण, धापूबाई बेवा लक्ष्मीनारायण हि. 1/2 हि.ब. प्रेमचन्द पुत्र रामप्रसाद भवरीबाई बेवा रामप्रसाद हि. 1/2 हि.ब. जाति ब्राह्मण निवासी गांव खातेदार।
				167	निजी	गे.मु.	0.0242	रमेशचन्द्र, विष्णुप्रसाद पुत्र शंकरलाल कलावतीबाई, सुशीलाबाई, केदार बाई रेखा बाई, मंजूबाई पुत्रियां शंकर लाल, कमला बाई बेवा शंकरलाल जाति महाजन निवासी गांव खातेदार।
				168	निजी	बारानी उत्तम	0.0050	रमेशचन्द्र, विष्णुप्रसाद पुत्र शंकरलाल कलावतीबाई, सुशीलाबाई, केदार बाई रेखा बाई, मंजूबाई पुत्रियां शंकर लाल, कमला बाई बेवा शंकरलाल जाति महाजन निवासी गांव खातेदार।
				1619 / 4	निजी	माल दायम	0.0185	राजेन्द्र प्रसाद पिता कल्याण प्रसाद जाति मीणा नि. खजूरी कला
				1620 / 4	निजी	माल दायम	0.0185	राजेन्द्र प्रसाद पिता कल्याण प्रसाद जाति मीणा नि. खजूरी कला
				1621 / 4	निजी	माल दायम	0.0185	राजेन्द्र प्रसाद पिता कल्याण प्रसाद जाति मीणा नि. खजूरी कला

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				628	निजी	बारानी दोयम	0.0020	रामकवरी पत्नी सीताराम जाति भील नि. रामपुरिया तह. पिडावा हि. 1/4 कंवरलाल, प्रताप पुत्र नारायण हि. 1/4 जगन्नाथ पि. रामा हि. 1/4 देवीलाल पुत्र रुघनाथ, उमाबाई कंचनबाई पुत्रीयां रुघनाथ हि. 1/4 हि.ब. जाति भील निवासी आनन्दा खातेदार।
				629	निजी	बारानी दोयम	0.0150	रामकवरी पत्नी सीताराम जाति भील नि. रामपुरिया तह. पिडावा हि. 1/4 कंवरलाल, प्रताप पुत्र नारायण हि. 1/4 जगन्नाथ पि. रामा हि. 1/4 देवीलाल पुत्र रुघनाथ, उमाबाई कंचनबाई पुत्रीयां रुघनाथ हि. 1/4 हि.ब. जाति भील निवासी आनन्दा खातेदार।
				630	निजी	बारानी दोयम	0.0200	रामकवरी पत्नी सीताराम जाति भील नि. रामपुरिया तह. पिडावा हि. 1/4 कंवरलाल, प्रताप पुत्र नारायण हि. 1/4 जगन्नाथ पि. रामा हि. 1/4 देवीलाल पुत्र रुघनाथ, उमाबाई कंचनबाई पुत्रीयां रुघनाथ हि. 1/4 हि.ब. जाति भील निवासी आनन्दा खातेदार।
				631	निजी	बीड़	0.0132	रामकवरी पत्नी सीताराम जाति भील नि. रामपुरिया तह. पिडावा हि. 1/4 कंवरलाल, प्रताप पुत्र नारायण हि. 1/4 जगन्नाथ पि. रामा हि. 1/4 देवीलाल पुत्र रुघनाथ, उमाबाई कंचनबाई पुत्रीयां रुघनाथ हि. 1/4 हि.ब. जाति भील निवासी आनन्दा खातेदार।
				134	निजी	चाही प्रथम	0.0370	रामनारायण, जगदीश, परमानन्द पिस. बापूलाल जाति कुल्मी हि.ब. निवासी गांव खातेदार।
				176	निजी	चाही उत्तम	0.0350	रामनारायण, जगदीश, परमानन्द पिस. बापूलाल जाति कुल्मी हि.ब. निवासी गांव खातेदार।
				1669 / 179	निजी	चाही उत्तम	0.0007	रामनारायण पि. कंवरलाल जाति मीणा सा. देह खातेदार।
				226	निजी	चाही प्रथम	0.1800	रामप्रसाद पुत्र कंवरलाल जाति कुल्मी निवासी गांव खातेदार।
				229	निजी	बीड़	0.0320	रामप्रसाद पुत्र कंवरलाल जाति कुल्मी निवासी गांव खातेदार।
				253	निजी	माल प्रथम	0.1100	रामप्रसाद पुत्र कंवरलाल जाति कुल्मी निवासी गांव खातेदार।
				256	निजी	बारानी सोयम	0.0200	रामबाबू दिनेश पिस. श्रीकिशन, कंचन बाई बेवा श्रीकिशन जाति महाजन निवासी गांव खातेदार।
				254	निजी	माल प्रथम	0.0300	रूपचन्द पुत्र जगन्नाथ हि. 1/2 रामबाबू दिनेश पिस. श्री कृष्ण कंचनबाई बेवा श्री कृष्ण हि. 1/2 जाति महाजन निवासी गांव खातेदार।
				258	निजी	बीड़	0.0009	रूपचन्द पुत्र जगन्नाथ हि. 1/2 रामबाबू दिनेश पिस. श्री कृष्ण कंचनबाई बेवा श्री कृष्ण हि. 1/2 जाति महाजन निवासी गांव खातेदार।
				264	निजी	बारानी उत्तम	0.3400	रूपचन्द पुत्र जगन्नाथ हि. 1/2 रामबाबू दिनेश पिस. श्री कृष्ण कंचनबाई बेवा श्री कृष्ण हि. 1/2 जाति महाजन निवासी गांव खातेदार।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				285	निजी	माल प्रथम	0.0672	रूपचन्द पुत्र जगन्नाथ हि. 1/2 रामबाबू दिनेश पिस. श्री कृष्ण कंचनबाई बेवा श्री कृष्ण हि. 1/2 जाति महाजन निवासी गांव खातेदार।
				159	निजी	चाही प्रथम	0.1628	विकास कुमार नाबा. पि. रामचन्द्र शम्भू बाई बेवा रामचन्द्र हि. 1/5 हि.ब. नाबा. की वली माता शम्भू बाई परमानन्द पुत्र अमरलाल सुल्तान बाई पुत्री अमरलाल हि. 1/5 देवीलाल, जानकीलाल पुत्र प्रभूलाल हि. 1/5 दुलीचन्द बदीलाल, जगदीश पि. पन्नालाल, पांचीबाई बेवा पन्ना हि. 1/5 रमकूबाई पुत्री दरयाव बाई हि. 1/5 जाति मीना नि. गांव खातेदार
				166	निजी	गे.मु. चाह	0.0166	विकास कुमार नाबा. पि. रामचन्द्र शम्भू बाई बेवा रामचन्द्र हि. 1/5 हि.ब. नाबा. की वली माता शम्भू बाई परमानन्द पुत्र अमरलाल सुल्तान बाई पुत्री अमरलाल हि. 1/5 देवीलाल, जानकीलाल पुत्र प्रभूलाल हि. 1/5 दुलीचन्द बदीलाल, जगदीश पि. पन्नालाल, पांचीबाई बेवा पन्ना हि. 1/5 रमकूबाई पुत्री दरयाव बाई हि. 1/5 जाति मीना नि. गांव खातेदार
				1762/14	निजी	माल दोयम	0.0182	भवानीशंकर पि. श्रीराम जाति ब्राह्मण निवासी गांव खातेदार।
				544	निजी	बीड़	0.0126	हरीचन्द पुत्र रामबक्श, भंवरीबाई बेवा रामबक्श हि.ब. जाति माली सा. देह खातेदार।
				545	निजी	चाही उत्तम/जाव उत्तम	0.0670	हरीचन्द पुत्र रामबक्श, भंवरीबाई बेवा रामबक्श हि.ब. जाति माली सा. देह खातेदार।
				1763/14	निजी	माल दोयम	0.0182	हरिबक्श पि. श्रीराम जाति ब्राह्मण निवासी गांव खातेदार।
				1712/135	सरकारी	गे.मु.	0.1523	रेल्वे विभाग
				287	सरकारी	गे.मु.	0.0307	राजस्थान सरकार (सिवायचक)
				62	सरकारी	गे.मु. रास्ता	0.0258	राजस्थान सरकार (सिवायचक)
				3	सरकारी	गे.मु. रास्ता	0.1265	राजस्थान सरकार (सिवायचक)
				11	सरकारी	गे.मु. रास्ता	0.0230	राजस्थान सरकार (सिवायचक)
				224	सरकारी	गे.मु. रास्ता	0.0380	राजस्थान सरकार (सिवायचक)
				327	सरकारी	गे.मु. रास्ता	0.0378	राजस्थान सरकार (सिवायचक)
				337	सरकारी	गे.मु. रास्ता	0.0201	राजस्थान सरकार (सिवायचक)
				395	सरकारी	गे.मु. रास्ता	0.1004	राजस्थान सरकार (सिवायचक)
				401	सरकारी	गे.मु. रास्ता	0.1442	राजस्थान सरकार (सिवायचक)
				402	सरकारी	गे.मु. रास्ता	0.1024	राजस्थान सरकार (सिवायचक)
				413	सरकारी	गे.मु. रास्ता	0.0070	राजस्थान सरकार (सिवायचक)
				464	सरकारी	गे.मु. रास्ता	0.2296	राजस्थान सरकार (सिवायचक)
				543	सरकारी	गे.मु. रास्ता	0.0126	राजस्थान सरकार (सिवायचक)

[फा. सं. भाराप्र/11013/भूअ/राज/झालावाड़/2010]

माया प्रकाश, उप-सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th December, 2012

**S.O. 3035(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 133(E) dated 20.01.2012 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No 12 on the stretch of land from Km 346.000 to Km 365.000 (Jhalawar-Biaora Section) in District Jhalawar in the State of Rajasthan;**

And whereas the substance of the said notification has been published in “Rajasthan Patrika” and “Dainik Bhaskar” both dated 29.02.2012; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.



## SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 346.000 to Km 365.000 (Jhalawar-Biaora Section) in District Jhalawar in the State of Rajasthan.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in hectares)	Name of the land owner/ Interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	(1) Jhalawar	(1) Jhalrapatan	(1) Akodiya	52	Private	Bid	0.0296	Kallu, Ramnarayan, Dulichand, Ramnath, Tulsiram Son's of Amra Share 5/6 equal share Kailash Chand adult Arjun Singh Non-adult Durgashankar non-adult father Dulatram, Durgabai, Seema Bai, Kalawati Bai non-adult Sangeeta non-adult Rajkumari non-adult father Daulatram, Jatan Bai widow Daulatram Share 1/6 equal share Caste Bheel Thakur R/o Deh non-adult Guardian Mother Jatan Bai Khatedar.
				266	Private	Bid	0.0500	Kashiram S/o Kishna B/c Bheel Thakur R/o Deh Khatedar
				362	Private	Chahi First	0.0162	Kalu, Bajranga, Manohar, Chagan Son's of Kishan, Nandubai D/o Kishan and Ramlal S/o Phool Chand and Balaram S/o Barda Share 5/8 Rattiram, Atul S/o Prabhu, Narani Bai widow Prabhu Share 1/6 Kailash Bai W/o Indra Singh Share 5/24 B/c Bheel R/o Deh Khatedar.
				63	Private	Bid	0.0282	Durgalal, Amarlal S/o Devi Lal, Sita Bai, Shetan Bai, Badam Bai, Sajjan Bai Dr/o Devi Lal Kani Bai widow Devi Lal Share 1/3, Kalu, Tejpal non-adult S/o Sita Ram, Parwati non-adult D/o Sita Ram, Panabai widow Sitaram Share 1/3 equal share non-adult Guardian mother Pana bai, Nanda, Pappu S/o Ram singh, Ghisi Bai D/o Ramsingh, Kamla Bai widow Ramsingh Share 1/3 equal share B/c Bheel R/o Deh Khatedar.
				48	Private	Bid	0.0179	Durgalal S/o Panna Share 1/2 Bheru S/o Nanda Share 1/12 Ramratan S/o Nanda Share 1/4, Ramratan, Nanuram, Kalu S/o Birdha Bheri Bai, Dhapu Bai Dr/o Birdha Share 1/5 equal share B/c Bheel R/o Deh Khatedar.
				261	Private	Barani Doyam	0.0500	Dulichand S/o Amar Lal Share 1/2 Devishankar S/o Jai Lal, Dhapu Bai widow Jai Lal Share 1/2 equal share B/c Meena R/o Ektasa Khatedar.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				53	Private	Bid	0.0193	Devlal S/o Narayan Share 1/3 Puri Lal, Janki Lal S/o Manna Share 1/3 Shobha Ram non-adult S/o Puri Lal, Pinki Bai, non-adult Khani Bai, non-adult Dr/o Puri Lal Share 1/36 equal share Bhawanishankar, Balchand S/o Rugnath, Jani Bai D/o Rugnath, Kesar Bai widow Rugnath Share 5/36 equal share Harchand, Devi Chand S/o Bapu Lal, Kanti Bai D/o Bapu Lal, Kanchan Bai widow Bapu Lal Share 5/36 equal share Bhagwanti Bai D/o Jodha Share 1/36 Akvaam Bheel R/o Deh Radha Bai W/o Dev Lal B/c Meena R/o Deh Share 1/36 Khatodar.
				265	Private	Bid	0.0223	Devi Lal, Ramkishan, Durga Lal S/o Pura Badan bai widow Pura Share 1/4, Ramsingh, Karan Singh, Phool Singh, Gajesingh S/o Heera Share 3/16 Kamla Bai W/o Ram Singh share 1/16 Radheyshyam S/o Ramchandra Share 1/3 Mangi bai, Pushpa Bai Dr/o Ramchandra Share 1/6 B/c Bheel Thakur R/o Deh Khatodar.
				357	Private	Chahi First	0.0068	Devi Lal, Ramkishan, Durga Lal S/o Pura Badan bai widow Pura Share 1/4, Ramsingh, Karan Singh, Phool Singh, Gajesingh S/o Heera Share 3/16 Kamla Bai W/o Ram Singh share 1/16 Radheyshyam S/o Ramchandra Share 1/3 Mangi bai, Pushpa Bai Dr/o Ramchandra Share 1/6 B/c Bheel Thakur R/o Deh Khatodar.
				358	Private	Jaav First/Chahi First	0.0191	Devi Lal, Ramkishan, Durga Lal S/o Pura Badan bai widow Pura Share 1/4, Ramsingh, Karan Singh, Phool Singh, Gajesingh S/o Heera Share 3/16 Kamla Bai W/o Ram Singh share 1/16 Radheyshyam S/o Ramchandra Share 1/3 Mangi bai, Pushpa Bai Dr/o Ramchandra Share 1/6 B/c Bheel Thakur R/o Deh Khatodar.
				359	Private	Chahi First/Jaav First	0.0339	Devi Lal, Ramkishan, Durga Lal S/o Pura Badan bai widow Pura Share 1/4, Ramsingh, Karan Singh, Phool Singh, Gajesingh S/o Heera Share 3/16 Kamla Bai W/o Ram Singh share 1/16 Radheyshyam S/o Ramchandra Share 1/3 Mangi bai, Pushpa Bai Dr/o Ramchandra Share 1/6 B/c Bheel Thakur R/o Deh Khatodar.
				260/461	Private	Barani Doyam	0.0020	Devi Shankar S/o Bheru B/c Meena R/o Ektasa Khatodar
				255	Private	Barani Doyam	0.0160	Nand Kishore S/o Ramchandra B/c Bheel R/o Jhalapatan Share 1/4 Ramku Bai widow Bhanwar Lal Share 1/4, Basanti bai W/o Bijey Lal Share 1/4 Bijey Lal S/o Bhanwar Lal Share 1/4 B/c Meena R/o Ektasa Khatodar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				262	Private	Bid	0.0550	Nand Kishore S/o Ramchandra B/c Bheel R/o Jhalrapatan Share 1/4 Ramku Bai widow Bhanwar Lal Share 1/4, Bhanshi Bai W/o Bijey Lal Share 1/4 Bijey Lal S/o Bhanwar Lal Share 1/4 B/c Meena R/o Ektasa Khatedar
				366	Private	Chahi First/Janv First	0.0253	Bheru Lal, Mangi Lal, Ram Singh S/o Ram Karan, Bheri Bai B/c Ram Karan B/c Bheel Thakur equal share R/o Deh Khatedar
				363	Private	Chahi First/Janv First	0.0139	Bheru S/o Ghisa Share 1/2 Ratan, Kaku, Gopal, Bhawani Singh S/o Nanda and Nandani Bai widow Nanda Share 1/2 equal share B/c Bheel Thakur R/o Deh Khatedar
				364	Private	G.M. Rasta	0.0025	Bheru S/o Ghisa Share 1/2 Ratan, Kaku, Gopal, Bhawani Singh S/o Nanda and Nandani Bai widow Nanda Share 1/2 equal share B/c Bheel Thakur R/o Deh Khatedar
				499/368	Private	Chahi First/Janv First	0.0126	Bheru Lal S/o Champa Bai B/c Bheel R/o Deh Khatedar
				253	Private	Berani First	0.0330	Ram Kishan, Laxminarayan, Shriram, Bajranj S/o Nathu Lal, Ram Bai W/o Nathu Lal B/c Meena B/c Bheel equal share Khatedar
				254	Private	Bid	0.0004	Ram Kishan, Laxminarayan, Shriram, Bajranj S/o Nathu Lal, Ram Bai W/o Nathu Lal B/c Meena B/c Bheel equal share Khatedar
				67	Private	Bid	0.0126	Ram Kishan, Ram Dayal, Premchand S/o Rampratap, Gudi Bai, Mohar Bai, Bhuli Bai, Bhanshi Bai B/c Rampratap, Gulab Bai widow Rampratap share 1/6 and Durga Bai, Gesta Bai B/c Uda Share 1/6 Sita Ram S/o Nandu Ram Share 1/3 Meena S/o Nandu Ram Share 1/3 B/c Bheel Thakur B/c Deh Khatedar
				69	Private	Bid	0.0010	Ram Kishan, Ram Dayal, Premchand S/o Rampratap, Gudi Bai, Mohar Bai, Bhuli Bai, Bhanshi Bai B/c Rampratap, Gulab Bai widow Rampratap share 1/6 and Durga Bai, Gesta Bai B/c Uda Share 1/6 Sita Ram S/o Nandu Ram Share 1/3 Meena S/o Nandu Ram Share 1/3 B/c Bheel Thakur B/c Deh Khatedar
				258	Private	Berani Doyam	0.0020	Ram Lal S/o Phani J B/c Bheel Thakur R/o Deh Khatedar
				62	Private	Bid	0.0126	Raga Bai W/o Premchand Bheel R/o Kishan Khata Share 5/16 Badri Lal S/o Gangaram Share 5/16 Ram Bai D/o Gangaram Share 1/16 Bhawji S/o Dayaram, Kali bai, Bhanshi Bai, non-ahat B/c Dayaram non-ahat Gaudan mother Bhawji Bai Self and Bhawji Bai widow Dayaram Share 5/16 B/c Bheel B/c Deh Khatedar
				175	Government	Charagh	0.0250	Charagh
				68	Government	G.M. Chah	0.0126	Government of Rajasthan (Shreyashah)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				81	Government	G.M. Abadi	0.0252	Government of Rajasthan (Sivayachak)
				307	Government	G.M. Abadi	0.0244	Government of Rajasthan (Sivayachak)
				251	Government	G.M. Rasta	0.0060	Government of Rajasthan (Sivayachak)
				321	Government	G.M. Rasta	0.0102	Government of Rajasthan (Sivayachak)
				260/460	Government	Barani Doyam	0.0008	Government of Rajasthan (Sivayachak)
				508/257	Government	Commercial Use	0.0200	Government of Rajasthan (Sivayachak)
			(2) Kalyanpura	5	Private	Maal Soyam	0.0615	Devi Lal, Babulal S/o Champa Lal Share 1/2 equal share Mohan Lal S/o Champa Lal Share 1/6 Raju S/o Balchand, Prembai, Rukmani Bai D/o Balchand, Kamla Bai W/o Late Balchand Share 1/4 Sambhag B/c Mali R/o Ektasa and Ranglal S/o Bheru Lal B/c Meena R/o Deh Share 1/12 Khatedar
				278/13	Private	Bid	0.0379	Devi Shankar S/o Bheru B/c Meena R/o Ektasa Khatedar
				282/6	Private	Maal Soyam	0.0250	Devi Shankar S/o Mangi Lal B/c Khati R/o Ektasa Khatedar
				8	Private	Bid	0.0051	Bajrang Lal S/o Bapu, Kanchan Bai D/o Bapu Share 2/45 equal share and Piyush Kumar S/o Om Prakash B/c Khati R/o Jhalawar Share 3/45, Bhimraj, Hemraj S/o Heera, Santosh Bai D/o Heera Share 1/9 Durgashankar, Mohan Lal, Bhagwan S/o Badri Lal Share 1/3 B/c Brahman R/o Ektasa Piyush S/o Om Prakash, Krishna W/o Om Prakash Share 5/18 B/c Khati R/o Jhalawar, Gopal, Syam Lal S/o Bhuwana Share 1/9 Bheru Lal, Kanhiya Lal non-adult S/o Ramchandra Guardian Kaka Shyam Lal, Kamlesh Bai, Anokh Bai Drs/o Ramchandra Share 1/18 B/c Mali R/o Panwasa Khatedar
				9	Private	Maal Soyam	0.0500	Bajrang Lal S/o Bapu, Kanchan Bai D/o Bapu Share 2/45 equal share and Piyush Kumar S/o Om Prakash B/c Khati R/o Jhalawar Share 3/45, Bhimraj, Hemraj S/o Heera, Santosh Bai D/o Heera Share 1/9 Durgashankar, Mohan Lal, Bhagwan S/o Badri Lal Share 1/3 B/c Brahman R/o Ektasa Piyush S/o Om Prakash, Krishna W/o Om Prakash Share 5/18 B/c Khati R/o Jhalawar, Gopal, Shyam Lal S/o Bhuwana Share 1/9 Bheru Lal, Kanhiya Lal non-adult S/o Ramchandra Guardian Kaka Shyam Lal, Kamlesh Bai, Anokh Bai Drs/o Ramchandra Share 1/18 B/c Mali R/o Panwasa Khatedar
				1	Private	Maal Soyam	0.0684	Baluram S/o Dulichand, Kaushalya Bai D/o Dulichand Share 1/2 Devi Lal S/o Bheru Share 1/2 B/c Meena R/o Ektasa Khatedar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				10	Private	Maal Soyam	0.0690	Bhanwar Lal, Kalyan, Mohan Lal S/o Heera Lal equal share Share 1/2 Rakesh Kumar S/o Mangi Lal, Poonam Bai W/o Mangi Lal equal share Share 1/2 B/c Meena R/o Village Khatedar
				2	Private	Maal Soyam	0.0305	Rajaram, Lal Chand, Ramniwas S/o Balchand, Kamla Bai W/o Late Balchand Share 1/2 equal share Kalulal S/o Panna Lal Share 1/2 B/c Meena R/o Ektasa Khatedar
				3	Private	Maal Soyam	0.0321	Rajaram, Lal Chand, Ramniwas S/o Balchand, Kamla Bai W/o Late Balchand Share 1/2 equal share Kalulal S/o Panna Lal Share 1/2 B/c Meena R/o Ektasa Khatedar
				11	Private	Bid	0.0271	Rajesh Kumar S/o Mangi Lal, Poonam Bai W/o Late Mangi Lal B/c Meena R/o Village Khatedar equal share
				18	Private	Maal Doyam	0.0160	Rajesh Kumar S/o Mangi Lal, Poonam Bai W/o Late Mangi Lal B/c Meena R/o Village Khatedar equal share
				283/6	Private	Maal Soyam	0.0042	Ramprasad S/o Mangi Lal B/c Khati R/o Ektasa Khatedar
				281/6	Private	Maal Soyam	0.0214	Ramnarayan S/o Mangi Lal B/c Khati R/o Ektasa Khatedar
			(3) Iktasa	1444/1005	Private	Bid	0.0130	Kanwari Bai D/o Nanu Ram Share 2/3 Lali Bai D/o Nanu Ram Share 1/3 B/c Bheel R/o Deh Khatedar
				606	Private	Chahi Doyam	0.0060	Kanha, Devi Lal, Ramprasad S/o Chandniya, Jani Bai, Kanchan, Rukman, Radhi, Jadaav Drs/o Chandniya, Gajri widow Chandniya Share 1/2 equal share Laxminarayan S/o Puriya Share 1/4 Ravindra, Vinod, Banwari S/o Beeram, Aruna D/o Beeram, Sohan Bai W/o Beeram Share 1/4 B/c Meghwal Share 1/2 R/o Village Khatedar
				605	Private	G.M. Chah	0.0036	Kanha, Devi Lal, Ramprasad S/o Chandniya, Jani Bai, Kanchan, Rukman, Radhi, Jadaav Drs/o Chandniya, Gajri widow Chandniya Share 1/2 equal share Laxminarayan S/o Puriya Share 1/4 Ravindra, Vinod, Banwari S/o Beeram, Aruna D/o Beeram, Sohan Bai W/o Beeram Share 1/4 B/c Meghwal Share 1/2 R/o Village Khatedar
				586/1318	Private	Maal First/Bid	0.0139	Kailash, Bhawana, Gopal S/o Kanhiya Lal, Rukmani D/o Kanhiya Lal, Sundar Bai widow Kanhiya Lal Share 5/6 equal share Kalpana non-adult D/o Shyam, Sunita, Devi widow Shyam Share 1/6 B/c Bairagi R/o Village Khatedar Kalpna non-adult Guardian mother self Sunita Devi
				1253	Private	Chahi First/Bid First	0.0176	Kailash, Bhawana, Gopal S/o Kanhiya Lal, Rukmani D/o Kanhiya Lal, Sundar Bai widow Kanhiya Lal Share 5/6 equal share Kalpana non-adult D/o Shyam, Sunita, Devi widow Shyam Share 1/6 B/c Bairagi R/o Village Khatedar Kalpna non-adult Guardian mother self Sunita Devi
				1259/1413	Private	Maal Soyam	0.0075	Gulab Bai W/o Ghisa B/c Mali R/o Village Khatedar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1262	Private	Barani Doyam	0.0016	Gulab Bai W/o Ghisa B/c Mali R/o Village Khatedhar
				1258	Private	Barani Doyam	0.0350	Gulab Bai W/o Ghisa B/c Mali R/o Village Khatedhar
				1127	Private	Bid	0.0067	Gram Panchayat Aktasa Khatedar
				657	Private	Bid	0.0650	Ghisa S/o Lachman B/c Mali R/o Village Khatedhar
				1247	Private	Bid	0.0249	Ghisa S/o Lachman B/c Mali R/o Village Khatedhar
				586	Private	Bid/Maal First	0.0149	Chandra Prakash, Madhusudan, Radheyshyam S/o Bal Chand, Lalta Bai D/o Balchand, Ramkanya widow Balchand equal share B/c Bairagi R/o Village Khatedar
				1256/1319	Private	Maal First/Bid	0.0245	Chandra Prakash, Madhusudan, Radheyshyam S/o Bal Chand, Lalta Bai D/o Balchand, Ramkanya widow Balchand equal share B/c Bairagi R/o Village Khatedar
				1499/931	Private	Maal Soyam	0.0167	Jagdish Chand S/o Dev Lal B/c Meena R/o Badbela Khatedar
				1037	Private	G.M. Abadi	0.0140	Jagdish Chand, Ramprasad, Rameshwar S/o Mangi Lal B/c Mali R/o Village Khatedar
				1039	Private	Chahi First	0.0157	Jagdish Chand, Ramprasad, Rameshwar S/o Mangi Lal B/c Mali R/o Village Khatedar
				1040	Private	Maal First	0.0219	Jagdish Chand, Ramprasad, Rameshwar S/o Mangi Lal B/c Mali R/o Village Khatedar
				1041	Private	Bid	0.0183	Jagdish Chand, Ramprasad, Rameshwar S/o Mangi Lal B/c Mali R/o Village Khatedar
				701	Private	Bid	0.0124	Jai Lal S/o Dudha B/c Mali R/o Village Khatedar
				918	Private	Bid	0.0115	Jai Lal S/o Dudha B/c Mali R/o Village Khatedar
				929	Private	G.M. Chah	0.0056	Jai Lal, Ratan Lal, Mohan Lal S/o Bhanwarlal, Kamla, Shanti Drs/o Bhanwar Lal Share 1/5 Raju S/o Kanwar Lal, Kanya D/o Kanwar Lal Share 2/25 B/c Teli, Smt. Pushpa Bai W/o Badri Lal Brahmin Share 13/25 R/o Deh Khatedar
				1443/1005	Private	Bid	0.0054	Jawahar, Dhanna S/o Devi Lal, Bhanwari W/o Late Devi Lal B/c Bheel R/o Deh Khatedar
				1460/1030	Private	Bid	0.0020	Jawahar, Dhanna S/o Devi Lal, Bhanwari W/o Late Devi Lal B/c Bheel R/o Deh Khatedar
				587	Private	Bid	0.0550	Gyan Prakash S/o Prabhu Lal Brahman R/o Deh Khatedar
				588	Private	Maal First	0.0037	Gyan Prakash S/o Prabhu Lal Brahman R/o Deh Khatedar
				603	Private	Bid	0.0020	Gyan Prakash S/o Prabhu Lal Brahman R/o Deh Khatedar
				932	Private	Bid	0.0044	Durga Lal, Satyanarayan S/o Ramchandra B/c Meena equal share Khatedar
				1501/931	Private	Maal Soyam	0.0805	Durga Lal, Satyanarayan S/o Ramchandra B/c Meena equal share Khatedar
				899	Private	Maal Doyam	0.0416	Dulichand S/o Amar Lal Share 1/2 Devi Shankar S/o Jai Lal, Dhapu Bai widow Jai Lal Share 1/2 B/c Meena R/o Village Khatedar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				900	Private	Maal Doyam	0.0435	Dulichand S/o Amar Lal Share 1/2 Devi Shankar S/o Jai Lal, Dhapu Bai widow Jai Lal Share 1/2 B/c Meena R/o Village Khatedar
				895	Private	Maal Doyam	0.0700	Dev Lal S/o Moti Lal B/c Meena R/o Village Khatedar
				941	Private	Jaav Doyam/Chahi Doyam	0.0296	Devishankar S/o Bheru B/c Meena R/o Deh Khatedar
				580	Private	Bid	0.0424	Pushpa Bai W/o Prem Bihari B/c Mali R/o Village Khatedar
				928	Private	Maal Soyam	0.1051	Poonam Chand S/o Deram, Gayatri, Kamod Bai, Manju Bai Drs/o Deram, Radha Bai widow Deram B/c Meena R/o Deh Khatedar
				573	Private	Barani Doyam	0.0100	Prabhu Lal S/o Ram Chandra B/c Mali R/o Deh Khatedar
				1442/1005	Private	Bid	0.0129	Prabhu Lal S/o Gopi Lal B/c Bheel R/o Deh Khatedar
				1459/1030	Private	Bid	0.0020	Prabhu Lal S/o Gopi Lal B/c Bheel R/o Deh Khatedar
				1257/1412	Private	Bid	0.0059	Prabhu Lal S/o Dayaram (Balai) R/o Village Khatedar
				685	Private	Chahi Uttam	0.0319	Prabhu Lal, Shyam Lal S/o Devi Lal, Ghisi, Kani D/o Devi Lal, Balchand S/o Gopi, Kanchan, Ayodhya D/o Gopi, Mohan, Hemraj S/o Bapu Lal, Bhuli Bai D/o Bapu Lal, Mehtab Bai widow Bapu Lal, Heera Bai W/o Ramchandra, Bhuli Bai W/o Manohar Lal, Santosh Bai W/o Mohan Lal equal share B/c Bheel Thakur R/o Village Khatedar
				695	Private	Bid	0.0246	Prabhu Lal, Shyam Lal S/o Devi Lal, Ghisi, Kani D/o Devi Lal, Balchand S/o Gopi, Kanchan, Ayodhya D/o Gopi, Mohan, Hemraj S/o Bapu Lal, Bhuli Bai D/o Bapu Lal, Mehtab Bai widow Bapu Lal, Heera Bai W/o Ramchandra, Bhuli Bai W/o Manohar Lal, Santosh Bai W/o Mohan Lal equal share B/c Bheel Thakur R/o Village Khatedar
				1001	Private	Chahi First	0.0048	Bajranj Lal S/o Kanwar Lal, Dhapu Bai, Mangi Bai, Kali Bai, Shanti Bai Drs/o Kanwar Lal, Kesar Bai widow Kanwar Lal Share 6/14 Sambhag Ghanshyam, Radheyshyam, Gudda S/o Ghisi Bai, Laxminarayan W/o Ghisi Bai Share 1/14 Brijmohan, Radheyshyam S/o Har Lal, Santosh Bai D/o Har Lal, Dhapu Bai widow Har Lal Share 1/8 Premchand S/o Ranak Lal, Dhanni Bai widow Ranak Lal Share 1/4 equal share Bablu S/o Ramnath, Kanti Bai, Basanti Bai, Sharda Bai, Sunita Bai D/o Ramnath Share 1/8 B/c Mali R/o Village Khatedar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1002	Private	G.M. Chah	0.0061	Bajranj Lal S/o Kanwar Lal, Dhapu Bai, Mangi Bai, Kali Bai, Shanti Bai Drs/o Kanwar Lal, Kesar Bai widow Kanwar Lal Share 6/14 Sambhag Ghanshyam, Radheyshyam, Gudda S/o Ghisi Bai, Laxminarayan W/o Ghisi Bai Share 1/14 Brijmohan, Radheyshyam S/o Har Lal, Santosh Bai D/o Har Lal, Dhapu Bai widow Har Lal Share 1/8 Premchand S/o Ranak Lal, Dhanni Bai widow Ranak Lal Share 1/4 equal share Bablu S/o Ramnath, Kanti Bai, Basanti Bai, Sharda Bai, Sunita Bai D/o Ramnath Share 1/8 B/c Mali R/o Village Khatedar
				1004	Private	Chahi First	0.0334	Bajranj Lal S/o Kanwar Lal, Dhapu Bai, Mangi Bai, Kali Bai, Shanti Bai Drs/o Kanwar Lal, Kesar Bai widow Kanwar Lal Share 6/14 Sambhag Ghanshyam, Radheyshyam, Gudda S/o Ghisi Bai, Laxminarayan W/o Ghisi Bai Share 1/14 Brijmohan, Radheyshyam S/o Har Lal, Santosh Bai D/o Har Lal, Dhapu Bai widow Har Lal Share 1/8 Premchand S/o Ranak Lal, Dhanni Bai widow Ranak Lal Share 1/4 equal share Bablu S/o Ramnath, Kanti Bai, Basanti Bai, Sharda Bai, Sunita Bai D/o Ramnath Share 1/8 B/c Mali R/o Village Khatedar
				577	Private	Chahi Doyam	0.0044	Badri Lal S/o Ghisa, Geeta Bai D/o Ghisa, Jadaav Bai widow Ghisa equal share 1/3 Devi Lal 1/3 Jaiprasad, Madan S/o Kalu, Sundar Bai D/o Kalu, Bajrang Bai widow Kalu Share 1/3 equal share B/c Mali R/o Village Khatedar
				578	Private	G.M. Abadi	0.0032	Badri Lal S/o Ghisa, Geeta Bai D/o Ghisa, Jadaav Bai widow Ghisa equal share 1/3 Devi Lal 1/3 Jaiprasad, Madan S/o Kalu, Sundar Bai D/o Kalu, Bajrang Bai widow Kalu Share 1/3 equal share B/c Mali R/o Village Khatedar
				579	Private	Maal Soyam	0.0126	Badri Lal S/o Ghisa, Geeta Bai D/o Ghisa, Jadaav Bai widow Ghisa equal share 1/3 Devi Lal 1/3 Jaiprasad, Madan S/o Kalu, Sundar Bai D/o Kalu, Bajrang Bai widow Kalu Share 1/3 equal share B/c Mali R/o Village Khatedar
				664	Private	G.M. Chah	0.0041	Badri Lal, Prabhu Lal, Ramnarayan, Bhanwar Lal S/o Ram Chandra B/c Mali R/o Village Khatedar
				666	Private	Bid	0.0355	Badri Lal, Prabhu Lal, Ramnarayan, Bhanwar Lal S/o Ram Chandra B/c Mali R/o Village Khatedar
				667	Private	G.M. Abadi	0.0111	Badri Lal, Prabhu Lal, Ramnarayan, Bhanwar Lal S/o Ram Chandra B/c Mali R/o Village Khatedar
				668	Private	G.M. Khaliyan	0.0168	Badri Lal, Prabhu Lal, Ramnarayan, Bhanwar Lal S/o Ram Chandra B/c Mali R/o Village Khatedar



1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1232	Private	Bid	0.0268	Banwari Lal, Harimohan, Parmeshwar S/o Shyamsundar, Mohan Bai widow Shyamsundar Share 1/3 me Sambhag Ramdayal, Ramprasad S/o Jai Lal B/c Brahman R/o Village Share 2/3 me Sambhag
				1234	Private	G.M. Chah	0.0046	Banwari Lal, Harimohan, Parmeshwar S/o Shyamsundar, Mohan Bai widow Shyamsundar Share 1/3 me Sambhag Ramdayal, Ramprasad S/o Jai Lal B/c Brahman R/o Village Share 2/3 me Sambhag
				700	Private	Chahi Uttam	0.0090	Brijmohan, Harishchandra S/o Rangopal, Laxmi Bai widow Rangopal B/c Mali R/o Deh Khatedar
				610	Private	G.M. Chah	0.0126	Bhagwati Prasad, Chandrashekhar S/o Bhanwar Lal B/c Mali R/o Deh equal share 1/2 Ram Lal, Ramesh S/o Panna Lal, Sugan Bai D/o Panna Lal, Nandu Bai widow Panna Lal equal share Share 1/2 R/o Deh Khatedar
				608	Private	Chahi First	0.0300	Bhagwati Prasad, Chandrashekhar S/o Bhanwar Lal B/c Mali R/o Deh equal share Khatedar
				893	Private	Maal Soyam	0.0387	Bhawanishankar, Ramprasad S/o Narayan, Jagannathi Bai widow Narayan Share 1/2 Kasturi S/o Nanda Share 1/4 Dhapu Bai W/o Bhawanishankar Share 1/4 B/c Meena R/o Village Khatedar
				901	Private	Maal Doyam	0.0292	Bheru Lal S/o Deva B/c Mali R/o Deh Khatedar
				696	Private	Bid	0.0108	Bheru Lal S/o Deva Share 1/3 Kalu S/o Bhanwar Lal, Keshoram, Laxminarayan S/o Uda Share 1/6 Brijmohan, Harish Chand S/o Ram Gopal, Lashma Bai widow Rangopal Share 1/18 Jai Lal S/o Dudha, Kamla Bai D/o Dudha Share 1/9 equal share Shrikishan S/o Kana Share 1/8 Rampyari D/o Kana Share 1/24 Satyanarayan S/o Bheru Ramchandri Bai widow Bheru Share 1/12 Sambhag Devi Lal, Kailash S/o Nanuram, Kanwari Bai, Kanti Bai, Mohni Bai, Prem Bai D/o Nanuram Share 1/12 B/c Mali R/o Village Khatedar
				699	Private	G.M. Abadi	0.0077	Bheru Lal S/o Deva Share 1/3 Kalu S/o Bhanwar Lal, Keshoram, Laxminarayan S/o Uda Share 1/6 Brijmohan, Harish Chand S/o Ram Gopal, Lashma Bai widow Rangopal Share 1/18 Jai Lal S/o Dudha, Kamla Bai D/o Dudha Share 1/9 equal share Shrikishan S/o Kana Share 1/8 Rampyari D/o Kana Share 1/24 Satyanarayan S/o Bheru Ramchandri Bai widow Bheru Share 1/12 Sambhag Devi Lal, Kailash S/o Nanuram, Kanwari Bai, Kanti Bai, Mohni Bai, Prem Bai D/o Nanuram Share 1/12 B/c Mali R/o Village Khatedar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				913	Private	Bid	0.0052	Badri Lal S/o Dev Lal, Kailash Chand, Ramesh Chand, Kanti Bai, Kalawati Bai Drs/o Madan Lal and Durgashankar, Lalit S/o Devi Lal, Shyama Bai, Bharos Bai, Dhapu Bai, Indra Bai, Manju bai, Seema Bai Drs/o Devi Lal, Ramkanya Bai widow Devi Lal Share 3/4 equal share Om Prakash, Prakash Chand, Hemraj S/o Kalu Lal, Leela Bai, Guddi Bai Drs/o Kalu Lal Share 1/4 equal share B/c Mali R/o Village Khatedar
				583	Private	Chahi Doyam	0.0265	Mangi Lal S/o Ramchandra Share 1/4 Kamer D/o Ramchandra Share 1/4 B/c Bairagi R/o Deh, Mushtaq Ali, Akhtar Ali S/o Mehmood Ali Share 1/2 B/c Sayed Muslim R/o Jhalarapatan Khatedar
				914	Private	G.M. Chah	0.0081	Mangi Lal S/o Ghisa Share 1/2 Satyanarayan, Madhu, Lokesh, Lal Chand, Bal Chand S/o Bhanwar Lal, Santosh, Shanti D/o Bhanwar Lal, Kamla widow Bhanwar Lal Share 1/2 B/c Mali R/o Village equal share Khatedar
				915	Private	Bid	0.0402	Mangi Lal S/o Ghisa Share 1/2 Satyanarayan, Madhu, Lokesh, Lal Chand, Bal Chand S/o Bhanwar Lal, Santosh, Shanti D/o Bhanwar Lal, Kamla widow Bhanwar Lal Share 1/2 B/c Mali R/o Village equal share Khatedar
				584	Private	G.M. Chah	0.0132	Mangi Lal, Ballabh S/o Ram Chandra, Kamla, Kamer Drs/o Ram Chandra B/c Bairagi Equal share R/o Village Khatedar
				1500/931	Private	Maal Soyam	0.0168	Mohan Bai W/o Jagdish Chand B/c Meena R/o Badbela Khatedar
				630	Private	Bid	0.0105	Ratan Lal S/o Ramchandra B/c Brahman R/o Village Khatedar
				631	Private	G.M. Chah	0.0132	Ratan Lal S/o Ramchandra B/c Brahman R/o Village Khatedar
				894	Private	Maal Soyam	0.0592	Ravindra Kumar S/o Kanhiya Lal B/c Brahman R/o Kanwada at Present Village Khatedar
				933	Private	G.M. Chah	0.0043	Ram Kishan, Laxminarayan, Shriram, Bajrang Singh S/o Nathu Lal, Prem Bai D/o Nathu Lal, Poonam Chand S/o Deram, Gayatri, Kamod, Manju non-adult D/o Deram waliya Radha Bai Mother self Radha Bai widow Deram Share 1/10 Durga Lal, Satyanarayan S/o Ram Chandra, Radha Bai widow Ramchandra Share 1/10 Deram S/o Kesriya Share 1/10 non-adult Guardian Nathu Lal Father self Sardar Bai D/o Ratan Lal, Har Lal S/o Nanda 1/10 Sambhag Hari Lal S/o Nanda Share 1/10 Bheru S/o Jagannath Share 1/2 B/c Meena R/o Village Khatedar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				940	Private	Bid	0.0210	Ram Kishan, Laxminarayan, Shriram, Bajrang Singh S/o Nathu Lal, Prem Bai D/o Nathu Lal, Poonam Chand S/o Deram, Gayatri, Kamod, Manju non-adult D/o Deram waliya Radha Bai Mother self Radha Bai widow Deram Share 1/10 Durga Lal, Satyanarayan S/o Ram Chandra, Radha Bai widow Ramchandra Share 1/10 Deram S/o Kesriya Share 1/10 non-adult Guardian Nathu Lal Father self Sardar Bai D/o Ratan Lal, Har Lal S/o Nanda 1/10 Sambhag Hari Lal S/o Nanda Share 1/10 Bheru S/o Jagannath Share 1/2 B/c Meena R/o Village Khatedar
				1235	Private	Bid	0.0253	Ramchandra, Heera Chandra, Kishan Lal B/c Kulmi R/o Village Khatedar
				1237	Private	Bid	0.0210	Ramchandra, Heera Chandra, Kishan Lal B/c Kulmi R/o Village Khatedar
				1231	Private	Barani Doyam	0.0035	Ramdayal S/o Jai Lal B/c Brahman R/o Village Khatedar
				1264	Private	Maal Soyam	0.0084	Ramprasad S/o Madan Lal B/c Bheel R/o Junakhera Khatedar
				609	Private	G.M. Abadi	0.0066	Ram Lal, Ramesh S/o Panna Lal, Sagun Bai D/o Panna Lal, Nandu Bai widow Panna Lal B/c Luhar R/o Village Khatedar
				616	Private	Bid	0.0062	Ram Lal, Ramesh S/o Panna Lal, Sagun Bai D/o Panna Lal, Nandu Bai widow Panna Lal B/c Luhar R/o Village Khatedar
				1441/1005	Private	Bid	0.0054	Ramswroop S/o Mangi Lal Share 7/20 Kaushalya Bai D/o Mangi Lal Share 3/20 B/c Bheel R/o Village Madan Lal S/o Mangi Lal B/c Meena R/o Jhalarapatan Share 1/2 Khatedar
				1458/1030	Private	Bid	0.0038	Ramswroop S/o Mangi Lal Share 7/20 Kaushalya Bai D/o Mangi Lal Share 3/20 B/c Bheel R/o Village Madan Lal S/o Mangi Lal B/c Meena R/o Jhalarapatan Share 1/2 Khatedar
				585	Private	Maal First/Bid	0.0150	Shambhu Lal S/o Nand Lal, Kalawati Bai, Prem Bai D/o Nand Lal, Kesar Bai widow Nand Lal B/c Bairagi R/o Village Khatedar
				1251	Private	Chahi First/Bid	0.0205	Shambhu Lal S/o Nand Lal, Kalawati Bai, Prem Bai D/o Nand Lal, Kesar Bai widow Nand Lal B/c Bairagi R/o Village Khatedar
				1244	Private	Bid	0.0120	Shambhu Lal S/o Bheru, Parwati Bai, Kanti Bai D/o Bheru B/c Mali R/o Village Khatedar
				1245	Private	Bid	0.0110	Shambhu Lal S/o Bheru, Parwati Bai, Kanti Bai D/o Bheru B/c Mali R/o Village Khatedar
				1246	Private	Chahi First	0.0097	Shambhu Lal S/o Bheru, Parwati Bai, Kanti Bai D/o Bheru B/c Mali R/o Village Khatedar
				1000	Government	Charagah	0.0274	Charagah
				992	Government	G.M. Abadi	0.0034	Aabadi Gram Panchayat Ektasa
				993	Government	G.M. Abadi	0.0096	Aabadi Gram Panchayat Ektasa
				994	Government	G.M. Abadi	0.0063	Aabadi Gram Panchayat Ektasa

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				995	Government	G.M. Abadi	0.0206	Aabadi Gram Panchayat Ektasa
				996	Government	G.M. Abadi	0.0110	Aabadi Gram Panchayat Ektasa
				997	Government	G.M. Abadi	0.0355	Aabadi Gram Panchayat Ektasa
				919	Government	G.M. Kuye	0.0084	Primary School Panchayat Samiti Jhalarpatan
				921	Government	G.M. School	0.0159	Primary School Panchayat Samiti Jhalarpatan
				1299	Government	G.M. Road	0.0012	Department of Public Works
				617	Government	G.M. Nali	0.0139	Rajasthan Government Khata (Sivayachak)
				618	Government	G.M. Nali	0.0033	Rajasthan Government Khata (Sivayachak)
				925	Government	G.M. Nali	0.0257	Rajasthan Government Khata (Sivayachak)
				998	Government	G.M. Nali	0.0105	Rajasthan Government Khata (Sivayachak)
				1128	Government	G.M. Nali	0.0049	Rajasthan Government Khata (Sivayachak)
				924	Government	G.M. Abadi	0.0042	Rajasthan Government Khata (Sivayachak)
				1031	Government	G.M. Abadi	0.0268	Rajasthan Government Khata (Sivayachak)
				1032	Government	G.M. Abadi	0.0074	Rajasthan Government Khata (Sivayachak)
				1033	Government	G.M. Abadi	0.0075	Rajasthan Government Khata (Sivayachak)
				1034	Government	G.M. Abadi	0.0034	Rajasthan Government Khata (Sivayachak)
				1036	Government	G.M. Abadi	0.0104	Rajasthan Government Khata (Sivayachak)
				602	Government	G.M. Rasta	0.0024	Rajasthan Government Khata (Sivayachak)
				687	Government	G.M. Rasta	0.0030	Rajasthan Government Khata (Sivayachak)
				923	Government	G.M. Rasta	0.0065	Rajasthan Government Khata (Sivayachak)
				1125	Government	G.M. Rasta	0.0025	Rajasthan Government Khata (Sivayachak)
			(4) Asnawar	2035/248	Private	Maal First	0.0152	Kanya Bai W/o Kalyan Prasad B/c Teli R/o Deh Khatedar
				220	Private	Bid	0.0160	Dwarka Prasad, Ramdayal, Anil Kumar S/o Lal Chand, Sugan Bai, Sumitra Bai Drs/o Lal Chand B/c Mahajan equal share R/o Deh Khatedar
				221	Private	Bid	0.0112	Dwarka Prasad, Ramdayal, Anil Kumar S/o Lal Chand, Sugan Bai, Sumitra Bai Drs/o Lal Chand B/c Mahajan equal share R/o Deh Khatedar
				222	Private	Chahi First/Jaav First	0.0092	Dwarka Prasad, Ramdayal, Anil Kumar S/o Lal Chand, Sugan Bai, Sumitra Bai Drs/o Lal Chand B/c Mahajan equal share R/o Deh Khatedar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				224	Private	Chahi First	0.0207	Dwarka Prasad, Ramdayal, Anil Kumar S/o Lal Chand, Sugan Bai, Sumitra Bai Drs/o Lal Chand B/c Mahajan equal share R/o Deh Khatedar
				225	Private	Chahi First/Jaav First	0.0378	Dwarka Prasad, Ramdayal, Anil Kumar S/o Lal Chand, Sugan Bai, Sumitra Bai Drs/o Lal Chand B/c Mahajan equal share R/o Deh Khatedar
				247/1	Private	Maal First	0.0429	Kalyan S/o Gajanand B/c Teli R/o Khatedar
				247/2	Private	Maal First	0.0143	Dhanna Lal S/o Kanwar Lal B/c Teli R/o Deh Khatedar
				247/3	Private	Maal First	0.0143	Lalu S/o Kanwar Lal B/c Teli R/o Deh Khatedar
				247/4	Private	Maal First	0.0143	Prem Bai W/o Prem Chand B/c Teli R/o Deh Khatedar
				116	Private	Maal First	0.0020	Nand Kishore, Om Prakash S/o Hariballabh Share 1/2 equal share Narendra Kumar S/o Hariballabh Share 1/2 B/c Brahman R/o Deh Khatedar
				112	Private	Maal First	0.0958	Narendra Kumar, Rajendra Kumar S/o Ram Gopal B/c Kulmi R/o Junakheda Khatedar
				249	Private	Maal First	0.0540	Banshi Lal S/o Nand Lal Share 1/2 Ram Gopal, Janki Lal S/o Prabhu Lal, Sumitra Bai, Kamla Bai Drs/o Prabhu Lal Share 1/2 equal share
				109	Private	Maal First	0.1533	Bajrang Lal, Bharat Kumar S/o Bapu Lal, Badam Bai widow Bapu Lal Share 1/5 Prabhu Lal S/o Nathu Share 1/5 Nanda S/o Gulab Share 1/5 B/c Meena, Bapu Lal S/o Balaram B/c Bheel Share 2/5 R/o Deh Khatedar
				108	Private	Maal First	0.0820	Badri Lal, Prabhu Lal, Ramnarayan, Bhanwar Lal S/o Ram Chandra B/c Mali R/o Ektasa Khatedar
				250	Private	Barani Soyam	0.0806	Muntaj S/o Mehmood Ali B/c Mustim Share 1/2 Ram Gopal, Janki Lal S/o Prabhu Lal, Sumitra Bai, Kamla Bai Drs/o Prabhu Lal, Bhuli Bai W/o Late Prabhu Lal Share 1/2 B/c Kulmi R/o Junakheda Khatedar
				236	Private	Maal Doyam	0.0208	Mohan Lal, Banshi Lal S/o Heera B/c Kalal R/o Deh Khatedar
				241	Private	Chahi First	0.0177	Manni Bai widow Madan Lal Share 1/5 Leela Bai, Prem Bai Drs/o Madan Lal Share 2/5 equal share Om Prakash, Suresh Chandra S/o Krishangopal, Sunita, Seema, Anju, Sheeta Bai Drs/o Krishangopal, Kanti Bai widow Krishangopal Share 1/5 equal share Radhika, Rachna, Payal Drs/o Sobhag Chand, Sugan Bai widow Sobhag Chand Share 1/5 equal share B/c Mahajan R/o Deh Khatedar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				242	Private	Chahi First	0.0572	Manni Bai widow Madan Lal Share 1/5 Leela Bai, Prem Bai Drs/o Madan Lal Share 2/5 equal share Om Prakash, Suresh Chandra S/o Krishangopal, Sunita, Seema, Anju, Sheetal Drs/o Krishangopal, Kanti Bai widow Krishan Gopal Share 1/5 equal share Radhika, Rachna, Payal Drs/o Sobhag Chand, Sugan Bai widow Sobhag Chand Share 1/5 equal share B/c Mahajan R/o Deh Khatedar
				120	Private	G.M. Chah	0.0106	Mohan Lal, Om Prakash, Ramesh Chander S/o Maangya, Kanchan Bai W/o Late Maangya Sannu Kumar, Ram Dayal S/o Ram Prasad non-adult Lalta Bai W/o Late Ramprasad non-adult Guardian mother Lalta Bai self Share 1/3 equal share Shriram, Kailash Chand, Raju Lal, Satyanarayan S/o Kishore, Basanti Bai D/o Kishore, Gyarsi Bai W/o Kishore Share 1/3 me equal share Kanwar Lal S/o Dalla, Mangi Bai, Dhapu Bai, Chanda Bai Drs/o Dalla, Rampyari Bai W/o Late Dalla Share 1/3 B/c Teli R/o Deh Khatedar
				119	Private	Banjad	0.0506	Mohan Lal, Om Prakash, Ramesh Chander S/o Maangya, Kanchan Bai W/o Late Maangya Sannu Kumar, Ram Dayal S/o Ram Prasad non-adult Lalta Bai W/o Late Ramprasad non-adult Guardian mother Lalta Bai self Share 1/3 equal share Shriram, Kailash Chand, Raju Lal, Satyanarayan S/o Kishore, Basanti Bai D/o Kishore, Gyarsi Bai W/o Kishore Share 1/3 me equal share Kanwar Lal S/o Dalla, Mangi Bai, Dhapu Bai, Chanda Bai Drs/o Dalla, Rampyari Bai W/o Late Dalla Share 1/3 B/c Teli R/o Deh Khatedar
				244	Private	Banjad	0.0448	Mohan Lal S/o Birdhi Lal B/c Kulmi R/o Junakheda Khatedar
				246	Private	Maal First	0.0216	Mohan Lal S/o Birdhi Lal B/c Kulmi R/o Junakheda Khatedar
				563	Private	G.M. Odi	0.0083	Raju, Ghanshyam, Hemant S/o Kanwar Lal Mu. Bhuli Bai widow Kanwar Lal, Santosh Bai D/o Kanwar Lal, Prabhunath S/o Gorakhnath, Rama S/o Bhawana B/c Nath R/o Deh Khatedar
				501	Private	Banjad	0.0085	Rajesh Kumar, Rishi Kumar S/o Manak Chand B/c Mahajan R/o Deh Khatedar
				2034/248	Private	Maal First	0.0030	Ram Gopal, Rajendra, Chothmal, Ashok Kumar S/o Madho Share 7/8 Ramsukhi Bai W/o Madho Share 1/8 B/c Teli R/o Deh Khatedar
				1237	Private	Chahi Uttam	0.0217	Vidha Bai widow Devi Charan Share 1/3, Ramswaroop, Shyamswaroop S/o Mangi Lal Share 2/3 B/c Brahman R/o Deh Khatedar
				1261	Government	G.M.	0.0171	Education Department
				1262	Government	G.M. Play Ground	0.0701	Education Department

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				208	Government	Banjad	0.0029	Irrigation Department
				121	Government	Chahi First	0.0433	Irrigation Department
				122	Government	Chahi First	0.0060	Irrigation Department
				206	Government	Banjad	0.0209	Irrigation Department
				205	Government	Chahi Uttam	0.0250	Irrigation Department
				199	Government	G.M. House	0.0036	Irrigation Department
				360	Government	Bid	0.0122	Irrigation Department
				367	Government	Chahi Uttam/Jaav Uttam	0.0369	Irrigation Department
				363	Government	Chahi First/Jaav First	0.0629	Irrigation Department
				198/1670	Government	Chahi First	0.0020	Irrigation Department
				364	Government	Banjad	0.0287	Irrigation Department
				204	Government	Chahi Uttam/Jaav Uttam	0.0220	Irrigation Department
				366	Government	Banjad	0.0036	Irrigation Department
				1229	Government	Chahi Uttam/Jaav Uttam	0.0393	Irrigation Department
				1259	Government	G.M. Khal	0.0104	Irrigation Department
				1260	Government	Barani Doyam	0.0316	Irrigation Department
				118/1660	Government	Barani First	0.0107	Irrigation Department
				569/1869	Government	Banjad	0.0127	Irrigation Department
				568/1867	Government	Chahi Uttam	0.0544	Irrigation Department
				557/1730	Government	Chahi Uttam	0.0316	Irrigation Department
				566/1734	Government	Chahi Uttam	0.0134	Irrigation Department
				1221/1941	Government	Chahi Uttam	0.0466	Irrigation Department
				1225/1943	Government	Chahi Uttam	0.0465	Irrigation Department
				1224/1770	Government	Barani Soyam	0.0072	Irrigation Department
				203/1627	Government	Chahi Uttam	0.0091	Irrigation Department
				558/1732	Government	Chahi Uttam	0.0136	Irrigation Department
				1211	Government	G.M. Rasta	0.0171	Rajasthan Government (Sivayachak)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				201	Government	G.M. Rasta	0.0367	Rajasthan Government (Sivayachak)
				362	Government	G.M. Rasta	0.0096	Rajasthan Government (Sivayachak)
				499	Government	G.M.	0.0573	Rajasthan Government (Sivayachak)
				508	Government	G.M. Rasta	0.0063	Rajasthan Government (Sivayachak)
				564	Government	Banjad	0.0049	Rajasthan Government (Sivayachak)
				1331	Government	G.M. River	0.0387	Rajasthan Government (Sivayachak)
				1214	Government	G.M.	0.0239	Rajasthan Government (Sivayachak)
				1215	Government	G.M.	0.0699	Rajasthan Government (Sivayachak)
				1220	Government	Banjad	0.0187	Rajasthan Government (Sivayachak)
				217	Government	G.M. Nala	0.0026	Rajasthan Government (Sivayachak)
				1263	Government	G.M. Abadi	0.0750	Rajasthan Government (Sivayachak)
				1379	Government	G.M. Abadi	0.0814	Rajasthan Government (Sivayachak)
				1380	Government	G.M. Abadi	0.0981	Rajasthan Government (Sivayachak)
				117/1620	Government	Banjad	0.0506	Rajasthan Government (Sivayachak)
				1210/1840	Government	G.M. Abadi	0.4229	Rajasthan Government (Sivayachak)
				1206/1836	Government	G.M. Abadi	0.0650	Rajasthan Government (Sivayachak)
				1205/1834	Government	G.M. Abadi	0.1778	Rajasthan Government (Sivayachak)
				2025/1202	Government	G.M. Abadi	0.0064	Rajasthan Government (Sivayachak)
				2028/1203	Government	G.M. Abadi	0.0759	Rajasthan Government (Sivayachak)
				1495/1602	Government	G.M. Abadi	0.1538	Rajasthan Government (Sivayachak)
				1496/1966	Government	G.M. Abadi	0.2029	Rajasthan Government (Sivayachak)
			(5) Naya Gaon Bhanpura	363/286	Private	Barani Soyam	0.0090	Amar Lal, Prabhu Lal Son's of Kanha, Kanchan Bai, Ganga Bai Drs/o Kanha, Dakha Bai widow Kanha B/c Mogaya R/o Ananda Khatedar
				364/286	Private	Barani Soyam	0.0090	Kalu Lal S/o Manna, Mangi Bai, Gayatri Bai Drs/o Manna Puri Bai W/o Late Manna B/c Mogaya R/o Ananda Khatedar
				282	Private	Barani First	0.0317	Ramprasad S/o Champa Lal B/c Kulmi R/o Ananda Khatedar
				284	Private	Barani First	0.0150	Ramprasad S/o Champa Lal B/c Kulmi R/o Ananda Khatedar
				285	Private	Bid	0.0158	Ramprasad S/o Champa Lal B/c Kulmi R/o Ananda Khatedar
				279	Government	Charagah	0.0514	For Charagah and other ordinary work



## भारत का राजपत्र : असाधारण

[भाग II—खण्ड 3(ii)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				280	Government	Charagah	0.0648	For Charagah and other ordinary work
			(6) Talwariya	172	Private	Bid	0.0165	Anil Kumar Gupta S/o Lal Chand Gupta B/c Agarwal R/o Asnawar Khatedar
				332/110	Private	Jaav Soyam	0.0046	Kanhiya S/o Ram Chandra B/c Kahar R/o Deh Khatedar
				337/159	Private	Barani First	0.0050	Kanhiya S/o Ram Chandra B/c Kahar R/o Deh Khatedar
				109	Private	Bid	0.0183	Kanhiya S/o Ram Chandra B/c Kahar R/o Deh Khatedar
				171	Private	Barani First	0.0316	Kanha, Kanwar Lal S/o Heera B/c Kulmi R/o Ananda Khatedar
				334/110	Private	Chahi Soyam/Jaav Soyam	0.0178	Prem S/o Ram Chandra B/c Kahar R/o Deh Khatedar
				336/111	Private	Jaav Soyam	0.0100	Prem S/o Ram Chandra B/c Kahar R/o Deh Khatedar
				338/159	Private	Barani First	0.0066	Prem S/o Ram Chandra B/c Kahar R/o Deh Khatedar
				160	Private	Bid	0.0391	Bapu Lal S/o Bherudas B/c Bairagi R/o Deh Khatedar
				162	Private	Chahi Doyam	0.0160	Bapu Lal S/o Bherudas B/c Bairagi R/o Deh Khatedar
				173	Private	Bid	0.1552	Mangetram, Jethi S/o Hansraj Jethi B/c Khatri R/o Aklera, Tehsil Aklera Khatedhar
				333/110	Private	Jaav Soyam	0.0127	Mohan Lal S/o Ram Chandra B/c Kahar R/o Deh Khatedar
				174	Private	Bid	0.0088	Mohan Lal, Anar Singh S/o Rughnath, Mangi Bai widow Rughnath, Lal Singh S/o Gopal B/c Gujar R/o Deh Khatedar
				335/111	Private	Jaav Soyam/Chahi Soyam	0.0134	Radheyshyam S/o Ramchandra B/c Kahar R/o Deh Khatedar
				339/159	Private	Barani First	0.0050	Radheyshyam S/o Ramchandra B/c Kahar R/o Deh Khatedar
				112	Private	Chahi Soyam	0.0165	Ramdayal S/o Bapu Lal, Manju D/o Bapu Rampyari Bai widow Bapu R/o Deh equal share B/c Kahar Khatedar
				340/159	Private	Barani First	0.0050	Ramdayal S/o Bapu Lal, Manju D/o Bapu Rampyari Bai widow Bapu R/o Deh equal share B/c Kahar Khatedar
				285	Private	Barani Soyam	0.0048	Ramprasad S/o Champa Lal B/c Kulmi R/o Ananda Khatedar
				170	Private	Jaav Doyam/Chahi Doyam	0.0156	Hemraj, Sujaan S/o Ratan Lal, Geeta Bai, Guddi Bai D/o Ratan Lal, Menphool Bai W/o Late Ratan Lal equal share B/c Gujar R/o Deh Khatedar
				157	Government	Charagah	0.0592	For Charagah and other general work
				331/119	Government	Charagah	0.3712	For Charagah and other general work
				161	Government	G.M. Chah	0.0050	Rajasthan Government (Sivayachak)
				116	Government	G.M. Rasta	0.0300	Rajasthan Government (Sivayachak)
				103	Government	Banjad Na.Ka.Ka.	0.0200	Rajasthan Government (Sivayachak)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				106	Government	Banjad Na.Ka.Ka.	0.0088	Rajasthan Government (Sivayachak)
				113	Government	Banjad Na.Ka.Ka.	0.1064	Rajasthan Government (Sivayachak)
				115	Government	Banjad Na.Ka.Ka.	0.1100	Rajasthan Government (Sivayachak)
				279	Government	Banjad Na.Ka.Ka.	0.0356	Rajasthan Government (Sivayachak)
				326/158	Government	Banjad	0.0323	Rajasthan Government (Sivayachak)
			(7) Mohamma dpura	189	Private	Bid	0.0096	Kanwar Lal, Ratan Lal, Rampratap S/o Narayan, Bhuri Bai D/o Narayan B/c Bheel R/o Ananda Khatedar
				190	Private	Barani Soyam	0.0600	Kanwar Lal, Ratan Lal, Rampratap S/o Narayan, Bhuri Bai D/o Narayan B/c Bheel R/o Ananda Khatedar
				187	Private	Barani Soyam	0.0960	Badri Lal, Rameshwar Lal, Dwarka Lal S/o Balaram Share 3/4 equal share Vishal, Rakesh S/o Mohan Lal, Krishna Bai W/o Late Mohan Lal Share 1/4 B/c Kulmi R/o Ananda Khatedar
				276/179	Private	Barani Doyam	0.0039	Mohni Bai W/o Ramesh Chandra B/c Brahman R/o Village Khatedar
				279/180	Private	Bid	0.0875	Mohni Bai W/o Ramesh Chandra B/c Brahman R/o Village Khatedar
				184	Private	Bid	0.0460	Ramnarayan, Kailash Chandra adult Puri Lal non-adult son Ghisa non-adult Guardian Ramnarayan Brother B/c Meghwal Khatedar
				193	Private	Bid	0.1150	Laichand S/o Bapu Lal B/c Brahman R/o Deb Khatedar
				278/180	Private	Bid	0.0126	Hemant Kumar S/o Kailash Chand Jain B/c Agarwal R/o Asnawar Khatedar
				191	Government	Maal Doyam	0.0721	Rajasthan Government (Sivayachak)
				272/185	Government	Banjad	0.0280	Rajasthan Government (Sivayachak)
			(8) Ananda	138	Government	Charagah	0.0500	For Charagah and General work
				140	Government	Charagah	0.0760	For Charagah and General work
				143	Government	Charagah	0.0297	For Charagah and General work
				142	Government	Barani Soyam	0.0050	Rajasthan Government (Sivayachak)
				147	Government	G.M. Rasta	0.0056	Rajasthan Government (Sivayachak)
			(9) Dungargao n	328	Private	Barani Soyam	0.0070	Unkar Lal, Gordhan S/o Girdhari, Dhapu Bai, Gordhani Bai Drs/o Girdhari Share 4/5 Lalta Bai D/o Naaran, Ratan Bai W/o Late Naaran Share 1/5 B/c Mehar R/o Village Khatedar
				397	Private	Bid	0.0104	Udelal S/o Dev Lal share 1/2 Bapu Lal S/o Kishor share 1/4 Ramkaran, Balchand, Hansraj, Parmanand Sons of Mangi Lal, Rodi Bai W/o Late Mangi Lal share 1/4 B/c Mehar R/o village khatedar

## भारत का राजपत्र : असाधारण

[भाग II—खण्ड 3(ii)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				398	Private	Bid	0.0093	Udelal Kishor share 1/4 Ramkaran, Batehand, Hansraj, Parmanand Sons of Mangi Lal, Rodi Bai W/o Late Mangi Lal share 1/4 B/c Mehar R/o village khatedar
				324	Private	Maal Doyam	0.1175	Onkar Lal, Gordhan Sons of Girdhari, Gordhani Bai, Dhapu Bai Drs/o Girdhari Share 4/5, Lalta Bai D/o Naran, Ratan Bai W/o Late Naran Share 1/5 B/c Mehar R/o Village Khatedar
				326	Private	Bid	0.2184	Onkar Lal, Gordhan Sons of Girdhari, Gordhani Bai, Dhapu Bai Drs/o Girdhari Share 4/5, Lalta Bai D/o Naran, Ratan Bai W/o Late Naran Share 1/5 B/c Mehar R/o Village Khatedar
				266/1467	Private	Chahi First	0.1500	Kanchan Bai widow Shrikishan B/c Mahajan R/o Deh Share 2/3 Kalu Singh, Vikram Singh S/o Arjun Singh, Sohan Bai, Raju Bai S/o Arjun Singh Share 1/18 and Kalu Singh, Vikram Singh S/o Arjun Singh Share 2/18, Umrao Singh S/o Bheru Singh Share 1/6 B/c Rajput R/o Deh Khatedar
				520	Private	G.M. Chah	0.0035	Kanku Bai D/o Panna Lal Share 1/2 Bheru Lal, Radheshyam S/o Kanhiya Lal Share 3/8 Sushila Bai W/o Late Ram Gopal, Harishankar S/o Ram Gopal non-adult Guardian mother self Share 1/8 B/c Kulmi R/o Village Khatedar
				149	Private	Chahi Uttam	0.1300	Kailash Chand, Kamal Kishore, Girraj, Daya Chand S/o Shivprasad B/c Brahman R/o Village Khatedar
				148	Private	G.M. Chah	0.0250	Kailash Chand, Kamal Kumar, Giraaj, Dayaram S/o Shivprasad, Mohal Lal, Ratan Lal, Deep Chand, Phool Chand, Kailash Chand, Ramesh Chand S/o Laxminarayan, Dhapu Bai widow Laxminarayan equal share Prem Chand S/o Ramprasad share 1/4 Harlal, Bheru Lal S/o Sitaram share 1/4 Radheshyam, Ghanshyam, Ramesh, Mangi Lal S/o Bhavar Lal, Amrat Lal, Rajaram S/o Lal Chand, Kalawati D/o Lal Chand, Leela Bai widow Lal Chand Share 1/4 B/c Brahman R/o Village Prem Bai W/o Madan Lal B/c Teli share 1/4 Khatedar
				165	Private	Chahi Uttam	0.0336	Gajanand S/o Kanwar Lal B/c Kulmi R/o Village Khatedar
				228	Private	Chahi First	0.2206	Gajanand S/o Kanwar Lal B/c Kulmi R/o Village Khatedar
				252	Private	Maal First	0.0536	Girraj Prasad S/o Gajanand B/c Patidar R/o Village Khatedar
				323	Private	Maal Doyam	0.0325	Govind S/o Onkar, Bhawari Bai D/o Onkar B/c Nai R/o Deh Khatedar
				325	Private	Bid	0.0759	Govind S/o Onkar, Bhawari Bai D/o Onkar B/c Nai R/o Deh Khatedar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				120/1456	Private	Barani Soyam	0.1391	Ghisa Lal, Ram Gopal S/o Bihari Lal Share 2/3 Kailash Chand S/o Lal Chand Sumitra Bai, Manju Bai, Phool Bai Drs/o Lal Chand, Kanchan Bai widow Lal Chand Share 1/3 B/c Mali R/o Village Khatedar
				13	Private	Maal Doyam	0.2632	Ghisa Lal, Daulatram, Shyam Lal S/o Kishan, Barji Bai, Mangi Bai Drs/o Kishan Share 1/4 Bal Chand S/o Shankar, Kanya Bai D/o Shankar non-adult Guardian Geeta Bai W/o Late Shankar Share 1/4 equal share B/c Brahman R/o Village and Smt. Kaushalya Devi W/o Kanhiya Lal B/c Meena Share 1/2 R/o Khajoori Kalan Khatedar
				550	Private	Maal Doyam	0.0032	Jagdish Prasad S/o Babu Lal B/c Kulmi R/o Village Khatedar
				393	Private	Barani First	0.0380	Durga Bai W/o Ramchandra B/c Mehar R/o Deh Khatedar
				394	Private	Bid	0.0090	Durga Bai W/o Ramchandra B/c Mehar R/o Deh Khatedar
				396	Private	Bid	0.0017	Durga Bai W/o Ramchandra B/c Mehar R/o Deh Khatedar
				546	Private	G.M. Jhada	0.0100	Dhapu, Mathri, Norang Drs/o Bhawari Share 1/3 Kavita non-adult D/o Narottam, Gayatri Bai widow Narottam non-adult Guardian Dadi Mangi Bai, Manohar Bai, Gayatri Bai Drs/o Nanuram, Mangi Bai widow Nanuram Share 1/6 Balchand, Phool Chand S/o Ramnarayan, Mohan Bai D/o Ramnarayan, Gedi Bai widow Ramnarayan Share 1/9 equal share Harish Chandra S/o Rambaqsh, Bhawari Bai widow Rambaqsh Share 2/9 Bhuri Bai, Santosh Bai, Soni Bai, Geeta Bai non-adult Drs/o Dev Lal, Chamma Bai widow Dev Lal Share 1/6 B/c Mali R/o Deh Khatedar
				177	Private	Chahi Uttam	0.1600	Nand Lal, Kailash Chand, Dwarki Lal, Poonam Chand, Girraj S/o Deepchand, Seeta Bai W/o Late Deep Chand, Leela D/o Deep Chand B/c Kulmi R/o Deh Khatedar
				263	Private	Bid	0.0021	Kalu Singh, Vikram Singh S/o Arjun Singh Share 2/6 Kalu Singh, Vikram Singh S/o Arjun Singh, Sohan Bai, Raju Bai Drs/o Arjun Singh Share 1/6 Umrao Singh S/o Bheru Singh Share 1/2 B/c Rajput R/o Village Khatedar
				540	Private	Chahi Uttam	0.0081	Nathu Ram, Onkar Lal, Maganram S/o Bhawar Lal, Pari Bai, Kanchan Bai, Kasturi Bai Drs/o Bhawar Lal Mali R/o Deh Khatedar
				1622/157	Private	Chahi Uttam	0.0245	Puri Lal, Madan Lal S/o Dhula, Parwati Bai D/o Dhula, Rodi Bai W/o Late Dhula B/c Mali R/o Village equal share Khatedar
				1761/157	Private	Chahi Uttam	0.0426	Dhula S/o Bheru B/c Mali R/o Village Khatedar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2	Private	Maal Doyam	0.0472	Badri Lal, Rameshwar, Dwarka Lal S/o Balaram Share 3/4 equal share Naresh Kumar, Vishal Kumar S/o Mohan Lal, Krishna Bai widow Mohan Lal Share 1/4 equal share B/c Kulmi R/o Ananda Khatedar
				1	Private	Barani Soyam	0.0490	Badri Lal, Rameshwar S/o Balaram B/c Kulmi R/o Ananda Khatedar
				266/1468	Private	Jaav First	0.2076	Banwari Lal S/o Gajanand B/c Kulmi R/o Village Khatedar
				178	Private	Chahi Uttam	0.2375	Ballabh Lal S/o Gajanand B/c Kulmi R/o Village Khatedar
				9	Private	Maal Doyam	0.1900	Balaram, Mangi Lal, Narayan Lal S/o Shankar Lal share 3/4 and Balaram, Mangi Lal, Narayan Lal S/o Shankar Lal, Geeta Bai, Kanku Bai Drs/o Shankar Lal share 1/4 B/c Kulmi R/o Village Khatedar
				10	Private	Maal Doyam	0.0566	Balaram, Mangi Lal, Narayan Lal S/o Shankar Lal share 3/4 and Balaram, Mangi Lal, Narayan Lal S/o Shankar Lal, Geeta Bai, Kanku Bai Drs/o Shankar Lal share 1/4 B/c Kulmi R/o Village Khatedar
				526	Private	Chahi Soyam	0.0472	Bheru Lal, Radheshyam S/o Kanhiya Lal Share 2/3 Hari Shankar S/o Ramgopal Sushila Bai widow Ramgopal Share 1/3 B/c Kulmi R/o Village Khatedar
				541	Private	G.M. Jhada	0.0193	Bheru Lal, Radheshyam S/o Kanhiya Lal Share 2/3 Hari Shankar S/o Ramgopal Sushila Bai widow Ramgopal Share 1/3 B/c Kulmi R/o Village Khatedar
				542	Private	Bid	0.1585	Bheru Lal, Radheshyam S/o Kanhiya Lal Share 2/3 Hari Shankar S/o Ramgopal Sushila Bai widow Ramgopal Share 1/3 B/c Kulmi R/o Village Khatedar
				158	Private	Chahi Uttam	0.0461	Mangi Lal S/o Kishna B/c Mali R/o Deh Khatedar
				1760/157	Private	Chahi Uttam	0.0379	Mangi Lal S/o Kishna B/c Mali R/o Deh Khatedar
				150	Private	Chahi Uttam	0.0120	Mohan Lal, Ratan Lal, Deep Chand, Phool Chand, Kailash Chand, Ramesh Chand S/o Laxminarayan, Dhapu Bai widow Laxminarayan Share 1/2 equal share Prem Chand S/o Ramprasad Bhawari Bai widow Ramprasad Share 1/2 equal share B/c Brahman R/o Village Khatedar
				167	Private	G.M.	0.0242	Ramesh Chandra, Vishnu Prasad S/o Shankar Lal, Kalawati Bai, Sushila Bai, Kedar Bai, Rekha Bai, Manju Bai D/o Shankar Lal, Kamla Bai widow Shankar Lal B/c Mahajan R/o Village Khatedar
				168	Private	Barani Uttam	0.0050	Ramesh Chandra, Vishnu Prasad S/o Shankar Lal, Kalawati Bai, Sushila Bai, Kedar Bai, Rekha Bai, Manju Bai Drs/o Shankar Lal, Kamla Bai widow Shankar Lal B/c Mahajan R/o Village Khatedar
				1619/4	Private	Maal Doyam	0.0185	Rajendra Prasad S/o Kalyan Prasad B/c Meena R/o Khajoori Kalan
				1620/4	Private	Maal Doyam	0.0185	Rajendra Prasad S/o Kalyan Prasad B/c Meena R/o Khajoori Kalan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1621/4	Private	Maal Doyam	0.0185	Rajendra Prasad S/o Kalyan Prasad B/c Meena R/o Khajoori Kalan
				628	Private	Barani Doyam	0.0020	Ramkavari W/o Sitaram B/c Bheel R/o Rampuriya Tehsil Pidava Share 1/4 Kanwar Lal, Pratap S/o Narayan Share 1/4 Jagannath S/o Rama Share 1/4 Devi Lal S/o Rughnath, Uma Bai, Kanchan Bai Drs/o Rughnath Share 1/4 equal share B/c Bheel R/o Ananda Khatedar
				629	Private	Barani Doyam	0.0150	Ramkavari W/o Sitaram B/c Bheel R/o Rampuriya Tehsil Pidava Share 1/4 Kanwar Lal, Pratap S/o Narayan Share 1/4 Jagannath S/o Rama Share 1/4 Devi Lal S/o Rughnath, Uma Bai, Kanchan Bai Drs/o Rughnath Share 1/4 equal share B/c Bheel R/o Ananda Khatedar
				630	Private	Barani Doyam	0.0200	Ramkavari W/o Sitaram B/c Bheel R/o Rampuriya Tehsil Pidava Share 1/4 Kanwar Lal, Pratap S/o Narayan Share 1/4 Jagannath S/o Rama Share 1/4 Devi Lal S/o Rughnath, Uma Bai, Kanchan Bai Drs/o Rughnath Share 1/4 equal share B/c Bheel R/o Ananda Khatedar
				631	Private	Bid	0.0132	Ramkavari W/o Sitaram B/c Bheel R/o Rampuriya Tehsil Pidava Share 1/4 Kanwar Lal, Pratap S/o Narayan Share 1/4 Jagannath S/o Rama Share 1/4 Devi Lal S/o Rughnath, Uma Bai, Kanchan Bai Drs/o Rughnath Share 1/4 equal share B/c Bheel R/o Ananda Khatedar
				134	Private	Chahi First	0.0370	Ramnarayan, Jagdish, Parmanand S/o Bapu Lal B/c Kulmi equal share R/o Village Khatedar
				176	Private	Chahi Uttam	0.0350	Ramnarayan, Jagdish, Parmanand S/o Bapu Lal B/c Kulmi equal share R/o Village Khatedar
				1669/179	Private	Chahi Uttam	0.0007	Ramnarayan S/o Kanwar Lal B/c Meena R/o Deh Khatedar
				226	Private	Chahi First	0.1800	Ramprasad S/o Kanwar Lal B/c Kulmi R/o Village Khatedar
				229	Private	Bid	0.0320	Ramprasad S/o Kanwar Lal B/c Kulmi R/o Village Khatedar
				253	Private	Maal First	0.1100	Ramprasad S/o Kanwar Lal B/c Kulmi R/o Village Khatedar
				256	Private	Barani Soyam	0.0200	Rambabu, Dinesh S/o Shrikishan, Kanchan Bai widow Shrikishan B/c Mahajan R/o Village Khatedar
				254	Private	Maal First	0.0300	Roop Chand S/o Jagannath Share 1/2 Rambabu, Dinesh S/o Shrikishan, Kanchan Bai widow Shrikishan Share 1/2 B/c Mahajan R/o Village Khatedar
				258	Private	Bid	0.0009	Roop Chand S/o Jagannath Share 1/2 Rambabu, Dinesh S/o Shrikishan, Kanchan Bai widow Shrikishan Share 1/2 B/c Mahajan R/o Village Khatedar

1	2	3	4	5	6	7	8	
				264	Private	Barani Uttam	0.3400	Roop Chand S/o Jagannath Share 1/2 Rambabu, Dinesh S/o Shrikrishan, Kanchan Bai widow Shrikrishan Share 1/2 B/c Mahajan R/o Village Khatedar
				265	Private	Maal First	0.0672	Roop Chand S/o Jagannath Share 1/2 Rambabu, Dinesh S/o Shrikrishan, Kanchan Bai widow Shrikrishan Share 1/2 B/c Mahajan R/o Village Khatedar
				159	Private	Chahi First	0.1628	Vikas Kumar non-adult S/o Ram Chandra Shambhu Bai widow Ramchandra Share 1/5 equal share non-adult Guardian mother Shambhu Bai, Parmanand S/o Amar Lal, Sultan Bai D/o Amar Lal Share 1/5 Devi Lal, Janki Lal S/o Prabhu Lal Share 1/5 Duli Chand, Badri Lal, Jagdish S/o Panna Lal, Paachi Bai widow Panna Share 1/5 Ramku Bai D/o Daryaav Bai Share 1/5 B/c Meena R/o Village Khatedar
				166	Private	G.M. Chah	0.0166	Vikas Kumar non-adult S/o Ram Chandra Shambhu Bai widow Ramchandra Share 1/5 equal share non-adult Guardian mother Shambhu Bai, Parmanand S/o Amar Lal, Sultan Bai D/o Amar Lal Share 1/5 Devi Lal, Janki Lal S/o Prabhu Lal Share 1/5 Duli Chand, Badri Lal, Jagdish S/o Panna Lal, Paachi Bai widow Panna Share 1/5 Ramku Bai D/o Daryaav Bai Share 1/5 B/c Meena R/o Village Khatedar
				1762/14	Private	Maal Doyam	0.0182	Bhawani Shankar S/o Shriram B/c Brahman R/o Village Khatedar
				544	Private	Bid	0.0126	Harish Chand S/o Ram Bakash, Bhawari Bai widow Rambaksh equal share B/c Mali R/o Deh Khatedar
				545	Private	Chahi Uttam/Jaav Uttam	0.0670	Harish Chand S/o Ram Bakash, Bhawari Bai widow Rambaksh equal share B/c Mali R/o Deh Khatedar
				1763/14	Private	Maal Doyam	0.0182	Hari Baksh S/o Shriram B/c Brahman R/o Village Khatedar
				1712/135	Government	G.M.	0.1523	Railway Department
				257	Government	G.M.	0.0307	Rajasthan Government (Sivayachak)
				62	Government	G.M. Nala	0.0258	Rajasthan Government (Sivayachak)
				3	Government	G.M. Rasta	0.1265	Rajasthan Government (Sivayachak)
				11	Government	G.M. Rasta	0.0230	Rajasthan Government (Sivayachak)
				224	Government	G.M. Rasta	0.0380	Rajasthan Government (Sivayachak)
				327	Government	G.M. Rasta	0.0378	Rajasthan Government (Sivayachak)
				337	Government	G.M. Rasta	0.0201	Rajasthan Government (Sivayachak)
				395	Government	G.M. Rasta	0.1004	Rajasthan Government (Sivayachak)
				401	Government	G.M. Rasta	0.1442	Rajasthan Government (Sivayachak)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				402	Government	G.M. Rasta	0.1024	Rajasthan Government (Sivayachak)
				413	Government	G.M. Rasta	0.0070	Rajasthan Government (Sivayachak)
				464	Government	G.M. Rasta	0.2296	Rajasthan Government (Sivayachak)
				543	Government	G.M. Rasta	0.0126	Rajasthan Government (Sivayachak)

[F. No. NHAI/11013/LA/Raj./Jhalawar/2010]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.